

November 26, 2025

To,

BSE Limited

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G- Block,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai- 400001 Maharashtra

BSE Code: 520051

Mumbai - 400 051, Maharashtra

NSE Code: JAMNAAUTO

#### Subject: Newspaper Advertisement -Postal Ballot Notice & Remote E-voting.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the copy of newspaper advertisements dated November 26, 2025 published in Business Standard (All Editions) and Jansatta (Delhi & Chandigarh Edition) pertaining to Postal Ballot Notice and remote e-voting related information.

Kindly take the above information on records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal



INDUSIND BANK LTD., 499, FIRST FLOOR, KOHAT ENCLAVE,

PITAM PURA, NEW DELHI - 110034

It is hereby informed that the below mentioned borrowers & other availed Gold loan facility from it is never yillorimeted that the below inentionless borrowers a contertainment of the terms. In Industind Bank Limited. Due to failure in repayment of the Loan and breach of the terms & condition of the agreement. The Gold pledged against these loan is now scheduled for an open public auction. The respective auction proceed / bid amount will be credited to their/th-

boome action. The respective Loan account(s) and Linked Loan Accounts.

The Gold pledged will be auctioned on an "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS AND WHATEVER THERE IS" basis. Interested bidders intending to participate in the auction are required to adhere to the terms & condition outlined on IndusInd Bank's web site www.IndusInd.com and those of approved auction service provider.

The auction will be conducted through IndusInd Bank's approved service provider C1 India Pv Ltd., via their web portal https://www.bankeauctions.com.

Bid Documents, Declaration, General Terms and Conditions, these are available for reference of Industrial Bank's website i.e. https://www.Industrial.com and website of service provider i.e. https://www.bankeauctions.com.

The Authorized officer reserves the right at their sole discretion to amend or vary any of the term

	GL A/c No	Customer Name	Branch	Branch Contact No.	Gold Weight In Grams	
ı	704001308683	GAURAV	KAROL BAGH	8860373711	132.21	
ı	704001308690	GAURAV	KAROL BAGH	8860373711	127.45	
ı	704001220855	YOGENDER	ROHINI	9999812169	179.70	
ı	704001220923	YOGENDER	ROHINI	9999812169	202	
ı	704001284550	CHANDRA KANT	NOIDA SEC 51	7228968725	27.39	
ı	Last Date of Submission of Bid <b>01.12.2025</b> by 05.00 PM from the date of this notice.					

Date of auction is **is 02.12.2025** from 11.00 AM to 12.00 PM

The Borrowers retain the option to repay the full loan outstanding before the commencement of the auction. In doing so they may reclaim the pledged gold as per the terms and conditions of

Date: 25.11.2025 **Authorised Officer** Place: New Delhi

### **HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED**

Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1988PLC031191 Regd. Off.: B-2/8, SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029 Tel.: 011-41650348, Fax: 011-26191358 Email: accounts@hindustanadhesives.com, Website:www.bagla-group.com

NOTICE Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of **Hindustan Adhesives Limited** 

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2 2025, all Shareholders of the Company are hereby informed that a Special Window is ope for a period of six months, from July 7, 2025 till January 6, 2026 for re-lodgement of transfe requests of physical shares, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected /returned/ not attended to due to deficiency in the documents / process/ o otherwise. Investors who have missed earlier deadline of March 31, 2021 (the cut-off date for re-lodgement of transfer deeds) can take this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent M/s MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited), Noble Heights, 1st floor, NH-2 C-Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Tel 022 - 4918 6000 / 491 6175, email: Delhi@in.mpms.mufg.com. By Order of the Board

**Hindustan Adhesives Limited** Madhusudan Bagla (Managing Director) DIN-01425646

Place: New Delhi

Date: 25th November, 2025

#### JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar – 135001, Haryana Corporate Office: Unit No. 408,4th Floor, Tower-B, Vatika Mindscapes, Sector-27D, NH2, Faridabad-121003(HR.)

Tel. 0129-4006885; Website: www.jaispring.com. Email Id: investor.relations@iaispring.com NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 102, 108, 110 and other applicable rovisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of securities and Exchange Board of India (SEBI) and all applicable circulars on this subjec ssued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and SEBI, the specia resolution for appointment of Mr. R. S. Jauhar (DIN: 00746186) as Whole Time Directo designated as Chairman & Executive Director of the Company for a further period of years with effect from January 01, 2026 to December 31, 2028 is being proposed fo onsideration of the members of the Company for passing by means of Postal Ballot by way fremote e-voting only.

The Company has dispatched the Postal Ballot Notice ("Notice") on November 24, 2025 only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses were registere with the Depositories/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') as on the cut-off date i.e Vednesday, November 19, 2025. Members whose email addresses are not registered with the RTA/Depositories, may follow the procedure to register their email address with the RTA/Depository as mentioned in the Notice. The physical copies of the Notice, Postal Ballot orms and pre-paid Business Reply Envelopes are not being sent to the members.

Please note that only those members, whose names are recorded in the register of nembers/list of beneficiaries maintained by the RTA/ Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their vote by remote e-voting. The manner in which members holding shares in physical form or whose email addresses are not registered as on the cutoff date can cast their votes by following the procedure as provided in the Notice. The Notice is also available on the Company's website at https://jaispring.com/annual-and-financial-repor financial.aspx?financial-vear=2025-2026 and can also be accessed on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and that of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Members who do no eceive the Notice may download it from the above-mentioned websites

The members are requested to provide their assent (FOR) or dissent (AGAINST) through e-voting only. The Company has engaged the services of National Securities Depository imited ("NSDL") for the purpose of providing remote e-voting facility to the members. The etailed procedure for e-voting is enumerated in the Notice. The remote e-voting perior ommences on Sunday, November 30, 2025 at 9:00 a.m. and ends on Monday, Decembe 29, 2025 at 5:00 p.m. The remote e-voting facility will be disabled by NSDL immediatel

In case of any issues / queries connected with e-voting, members may contact t NSDL at evoting@nsdl.com or call on toll free no. of NSDL at 022 - 48867000 / 022 -24997000 or investor relations@iaispring.com

The Board of Directors of the Company has appointed M/s RSM & Co. Practicin Company Secretary (Membership No. 4468) as the Scrutinizer for conducting this Posta Ballot process through remote e-voting, in a fair and transparent manner. The results alon with the Scrutinizer Report of the Postal Ballot by e-voting will be announced within 2 working days of the conclusion of the e-voting process and the same shall be available or the websites of the Company, NSDL, NSE and BSE.

For Jamna Auto Industries Ltd Date: November 25, 2025 Company Secretary & Head-Lega

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
SANGHVI BEAUTY & TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (UNDER CIRP)
Operating / dealing in all kinds and varieties of beauty, cosmetics and
skincare products under the Brand name 'MyGlamm' through various stores
skincare products under the Brand name 'MyGlamm' through various stores
skincare products under the Comparate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

Name of the Corporate Del

SANGHVI BEAUTY & TECHNOLOGIES

11	along with FAN, ONLY LLF NO.	FRIVALE LIMITED
		CIN: U72900PN2015PTC156163
2.	Address of the Registered Office	Sanghvi House,105/2, Shivaji Nagar
		Pune - 411005 Maharashtra.
3.	URL of website	https://www.myglamm.com/
4.	Details of the place where the	There are no operating fixed assets of
	majority of fixed assets are located	Corporate Debtor except for inventory,
		brands etc.
5.	Installed capacity of main products/	NA
	services	
6.	Quantity and value of main products/	As per audited financial statements for
	services sold in the last financial year	FY 2023-24, the turnover from sale of
		products / services was INR 346.58 Crore
7.	Number of employees/workmen	As on Insolvency Commencement Date,
		there are 14 employees on rolls of the
		company
8.	Further details including last available	Details can be sought by emailing:
	financial statements (with schedules)	cirp-sanghvibtpl@beleyur.in
	of two years, lists of creditors,	
	relevant dates for subsequent events	
	of the process are available at:	
9.	Eligibility for resolution applicants	The detailed Invitation for Expression of
	under section 25(2)(h) of the Code	Interest (EoI) mentioning Eligibility Criteria
	is available at :	can be sought by an email to
		cirp-sanghvibtpl@beleyur.in
10.	Last date of receipt of expression	Friday, 26th December 2025
	of interest	
11.	Date of issue of the provisional list	Monday, 5th January 2026
	of prospective resolution applicants	
12.		Saturday, 10th January 2026
	objections to the provisional list	
13.		Tuesday, 20th January 2026
	prospective resolution applicants	0
14.	Date of issue of information	Saturday, 24th January 2026

Date: 26-11-2025

uesday, 24th February 2026

cirp-sanghvibtpl@beleyur.in

egis Resolution Services Private Limited Hagis resolution Services Firate Limited
Hirough authorized signatory Siddhant Agrawal
As Resolution Professional of Sanghvi Beauty & Technologies Private Limited
Registration No. IBBI/IPE-0118/IPA-1/2022-23/50041

Authorization for Assignment valid till 30th June 2026 Reg. Address: 106, 1st Floor, Kanakia Atrium 2, Cross Road A, Behind Courtyard Marriott, Chakala, Andheri East, Mumbai - 400093 Email: <u>ip.siddhantagrawal@gmail.com, cirp-sanghvibtpl@beleyur.in</u>

and request for resolution plans to

resolution plans Process email id to submit EOI

17. Details of the Corporate Debtor's

registration status as MSME

15. Last date for submission of

#### Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069.



Bareilly Branch: B3&B-4, Ground Floor, Akash Floors, 320-Civil Lines, City Station Road, Bareily-243001 (UP)

### APPENDIX IV **POSSESSION NOTICE** (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHEL for an amount as mentioned herein under with interest thereon

Sr. Name of the Borrower(s)/ No. Co-Borrower(s)(Name of the Branch)	Description of Secured Asset	Demand Notice	Date of
	(Immovable Property)	Date & Amount	Possession
1 (Loan Code No. 02600001401 / Bareilly Branch) Satya Veer (Borrower) Vishan Swaroop (Co-Borrowers) Harpal (Guarantor)	Property Situated At Village- Mugra Pargana, tahsil- Meerganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh - 243504 <b>Boundaries:</b> East- Plot Of Seller, West- House Of Seller, North- Vacant Plot, South-National Highway	08-07-2024 & ₹ 3,73,775/-	20-11-2025

Authorised Office Place : Uttar Pradesh Aadhar Housing Finance Limited Date: 26-11-2025

This advertisement is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof ("United States") or to, or for the purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not account or benefit of a United States person as defined in the Regulation S of the US Securities Act ("Regulation S"). I/ we understand an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 14. 2025 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE"), and also filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBIICDR Regulations).



#### JAINEX AAMCOL LIMITED

Our Company was originally incorporated in the name and style of "Anglo American Marine Company Limited" as a Public Limited Company under the Companies Act, 1913 on April 15,1947 by the Registrar of Companies, Bombay. The name of the Company was changed to Aamcol Tools Limited pursuant to a fresh Certificate of Incorporation granted by the Registrar of Companies, Bombay on June 05, 1984. The name of the Company was once again changed to "Jainex Aamcol Limited" and a fresh Certificate of Incorporation pursuant to the name change was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai on May 24, 2005. For details of changes in name and registered office of our Company, see "General Information" on page 31 of the Letter of Offe

Registered Office: L-3, MIDC Industrial Area., P.O. Chikalthana, Aurangabad- 431 006, Maharashtra, India Tel: +91 2406614480 / +91 22 22002252 Fax: +91 240 2482208 / +91 22 22002254 Contact Person: Sonam Dubey Company Secretary & Compliance Officer Email: info@inxaamcol.co.in Website: www.iainexaamcol.com Corporate Identity Number: L74999MH1947PLC005695 OUR PROMOTERS: BHAGAT SINGH DUGAR

ISSUE OF UP TO 7,48,169 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF Rs.10/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF Rs. 120 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF Rs. 110 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO Rs. 897.80 LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ONE (1) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY TWO (2) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARENOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025 (THE "ISSUE"), FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 65 OF THE LETTER OF OFFER

oue i rogiumme.	o i rogialimo.						
ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION**	ISSUE CLOSES ON#					
MONDAY, DECEMBER 01, 2025	THURSDAY, DECEMBER 04, 2025	TUESDAY, DECEMBER 09,2025					

\*\*Elicible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

# Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date

THE ISSUE PRICE OF EACH EQUITY SHARE IS TWELVE TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application – Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section
Facilities 1	for application in this Issue:	

ASBA Facility

n accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use either the ASBA process only. Investors should carefully

desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use eitner the ASBA process only. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details refer to "Terms of the Issue - Making of an Application through the ASBA process" on page 67 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS Pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Equity Shareholders will be credited in their respective demat account and shall be admitted for trading on the Stock Exchange under the ISIN INE280F20019 to requisite approvals. For details of credit of the Rights Entitlements, see "Terms of the Issue - Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders" on page 77 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of the demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. The Shareholder who failed to provide their demat details in the stipulated time then their rights entitlement shall lapse and shall not be eligible to apply in this issue.

The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by email, post, speed post, courier, or hand delivery at www.in.mpms.mufg.com so as to reach to the Registrar no later than two Working Days prior to the Issue Closing Date. Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares

in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company. PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and

ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Procedure for application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 70 of the Letter of Offer.

Procedure for Application through the ASBA process: Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA

process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/ OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=34. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, olease refer the above-mentioned link.

Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Date PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY ATLEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE, SHALL NOT

Availability of issue materials: In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

Allotment of rights equity shares in dematerialised form: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialised form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date. Dispatch of the Letter of Offer (LOF) and application: The dispatch of the LOF and the application form was completed on November 24, 2025 by the Registrar to the Issue.

Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made n dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in a dema suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of IEPF authority; or (c) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (d) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (e) credit of Other important links and helpline the Rights Entitlements returned/reversed/failed, or (f) the ownership of the Equity Shares under dispute, including any court proceedings, as applicable or g) non-institutional equity shareholders in the United States. Applications on Plain Paper under ASBA process

An Eligible Equity Shareholder who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India.

Alternatively, Eligible Equity Shareholders may also use the Application Form available online on the websites of our Company, the

Registrar to the Issue or the Stock Exchange to provide requisite details.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received

The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars: Name of our Issuer, being Jainex Aamcol Limited:

Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository)

Registered Folio Number/ DP and Client ID No.; Number of Equity Shares held as on Record Date;

Allotment option preferred - only Demat form:

Number of Rights Equity Shares entitled to;

· Number of Rights Equity Shares applied for; Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any:

Total number of Rights Equity Shares applied for within the Right Entitlements;

 Total amount paid at the rate of Rs. 120/- per Rights Equity Share; Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB;

Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear

• All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Purchases and Resales" on page 92 of the Letter of Offer and shall include the following:

### Aadhar Housing Finance Ltd.

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and Housing Finance Ltd M.V. Road, Andheri (East), Mumbai- 400069.

Faridabad Branch: Plot Number A-59 and 60, Second Floor, Neelam Bata Road, Faridabad-121001, Haryana

#### APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within **60 days** from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the

Ш	arge of Afficial an amount as mentioned herein under with interest thereon.					
ir. 10.	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s) (Name of the Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession		
1	(Loan Code No. 09794000005 / Faridabad Branch) Ravi Kumar (Borrower) Rekha (Co-Borrower)	All that piece and parcel of the property bearing, That Piece And Parcel of Land Having Area Admeasuring 250 Sq Yards Being Plot No C-84 Falling Within Sector 6 In The Said Colony Sitauted At Villages Alhapur, Tehsil And District Palwal, Haryana. <b>Boundaries</b> : East -Road, West - Other, North - Road, South - Plot No. 85	09-09-2025 & ₹ 16,53,957/-	20-11-2025		
			A 11			

Place : Haryana Authorised Officer Date: 26.11.2025 **Aadhar Housing Finance Limited** 

the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered in India but not in the United States. If we understand the offering to which this application relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement in the United States. Accordingly, I/ we understand this application should not be forwarded to or transmitted in or to the United States at any time. I/ we confirm that I/ we are not in the United States and understand that neither us. nor the Registrar or any other person acting on behalf of us will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who we, the Registrar or any other person acting on behalf of us have reason to believe is a resident of the United States "U.S. Person" (as defined in Regulation S) or is ineligible to participate in the Issue under the securities laws of their jurisdiction. I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.

I/ We understand and agree that the Rights Entitlement and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/We (i) am/are, and the person, if any, for whose account I/we am/are acquiring such Rights Entitlement, and/or the Equity Shares, is/are outside the United States or a Qualified Institutional Buyer (as defined in the US Securities Act), and (ii) is/are acquiring the Rights Entitlement and/or the Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulation S or in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. I/We acknowledge that the Company, their affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations

and agreements In cases where multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at www.in.mpms.mufg.com Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBAAccounts on or before the Issue Closing Date.

Last date for Application: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is Tuesday, December 09, 2025, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). If the Application Form is not submitted with a SCSB nor uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked

with the SCSB on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, "- Basis of Allotment" on page 85 of Procedure for Renunciation: The Investors may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts

either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges; or (b) through an off-market transfer, during the Renunciation Period. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism. Investors may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Investors who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements. The Lead Manager and our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Investors. Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements

credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchange under ISIN INE280F20019 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchange for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time. The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is one Rights

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from Monday,

December 01, 2025 to Tuesday, December 09, 2025. (both days inclusive).

The Investors holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock-brokers by quoting the ISIN INE280F20019 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade. The Investors can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE under automatic order matching mechanism and on 'T+1 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-fortrade basis. Upon execution of the order, the stock-broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and the SEBI.

b.Off Market Renunciation

market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only. Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date to enable

Renouncees to subscribe to the Equity Shares in the Issue The Investors holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN INE280F20019, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction)

has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Investors can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account. The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants. Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing

Listing and trading of the Equity Shares to be issued pursuant to this Issue The existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip code: 505212 under the ISIN: INE280F01019). The Rights Equity Shares shall be credited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing/ trading approvals from the Stock Exchanges. Upon receipt of such listing and trading approvals, the Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Equity Shares and thereafter be available for trading and the temporary ISIN shall be permanently

deactivated in the depository system of CDSL and NSDL. Disclaimer clause of BSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited."

Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent/ dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Investors can access the Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

a) our Company at www.jainexaamcol.com; b) the Registrar to the Issue at www.in.mpms.mufg.com and

c) the Stock Exchange at www.bseindia.com Allotment Banker Account – ICICI Bank Limited

Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

Bankers to the issue and Refund Banker - ICICI Bank Limited

For Risk Factors and other details, kindly refer page no. 17 of the Letter of Offer

The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes: a.Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: www.in.mpms.mufg.com

b.Updation of Indian address/ e-mail address/ phone or mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company. www.in.mpms.mufg.com . Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: www.in.mpms.mufg.com

d.Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non- resident Eligible Equity Shareholders: www.in.mpms.mufg.com Registrar to the Issue Company Secretary and Compliance Officer



Sonam Dubey Company Secretary and Compliance Officer L-3, MIDC Industrial Area., P.O. Chikalthana, Aurangabad- 431 006, Maharashtra, India **Tel:** +91 2406614480 / +91 22 22002252 Fax: +91 240 2482208 / +91 22 22002254 Email: info@jnxaamcol.co.in

Website: www.jainexaamcol.com

### MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED (Formerly Link Intime India Private Limited)

C-101, 247 Park L B S Marg Vikhroli (West) Mumbai 400 083 Telephone: +91 (22) 4918 6200; Fax No: 022 4918 6060 Contact Person: Shanti Gopalkrishnan Email: jainexaamcol.rights2025@linkintime.co.in; Website: www.in.mpms.mufg.com Investor Grievance ID: jainexaamcol.rights2025@linkintime.co.in

SEBI Registration No.: INR000004058

Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant. number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 65 of the Letter of Offer.

• In case of NR Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO Account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;

• In case of NR Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO Account Disclaimer: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;

• In case of NR Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO Account Disclaimer: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained; of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and the website of the company at www.jainexaamcol.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 17 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under "I/We understand that neither the Rights Entitlement nor the Rights Equity Shares have been, and will be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration.

#### **HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED**

Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1988PLC031191 Regd. Off.: B-2/8, SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029

Tel.: 011-41650348, Fax: 011-26191358 Email: accounts@hindustanadhesives.com, Website:www.bagla-group.com

#### NOTICE Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Hindustan Adhesives Limited

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2 2025, all Shareholders of the Company are hereby informed that a Special Window is ope for a period of six months, from July 7, 2025 till January 6, 2026 for re-lodgement of transfel requests of physical shares, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected /returned/ not attended to due to deficiency in the documents / process/ o otherwise. Investors who have missed earlier deadline of March 31, 2021 (the cut-off date for re-lodgement of transfer deeds) can take this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent M/s MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited), Noble Heights, 1st floor, NH-2 C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Tel 022 - 4918 6000 / 4918 6175, email: Delhi@in.mpms.mufg.com.

By Order of the Board **Hindustan Adhesives Limited** Sd/

Date: 25th November, 2025 Place: New Delhi

Madhusudan Bagla (Managing Director) DIN-01425646



### JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L35911HR1965PLC004485 Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar – 135001, Haryana

Corporate Office: Unit No. 408,4th Floor, Tower-B, Vatika Mindscapes, Sector-27D, NH2, Faridabad-121003(HR.) Tel. 0129-4006885; Website: www.jaispring.com

Email Id: investor.relations@jaispring.com NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 102, 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 o ecurities and Exchange Board of India (SEBI) and all applicable circulars on this subjec ssued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and SEBI, the specia esolution for appointment of Mr. R. S. Jauhar (DIN: 00746186) as Whole Time Directo designated as Chairman & Executive Director of the Company for a further period of years with effect from January 01, 2026 to December 31, 2028 is being proposed fo onsideration of the members of the Company for passing by means of Postal Ballot by wa of remote e-voting only.

The Company has dispatched the Postal Ballot Notice ("Notice") on November 24, 2025 only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses were registere with the Depositories/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') as on the cut-off date i.e Wednesday, November 19, 2025, Members whose email addresses are not registered with he RTA/Depositories, may follow the procedure to register their email address with the RTA/Depository as mentioned in the Notice. The physical copies of the Notice, Postal Ballo orms and pre-paid Business Reply Envelopes are not being sent to the members.

Please note that only those members, whose names are recorded in the register of nembers/list of beneficiaries maintained by the RTA/ Depositories as on the cut-off data will be entitled to cast their vote by remote e-voting. The manner in which members holding shares in physical form or whose email addresses are not registered as on the cutoff dat can cast their votes by following the procedure as provided in the Notice. The Notice is also available on the Company's website at https://jaispring.com/annual-and-financial-report financial.aspx?financial-year=2025-2026 and can also be accessed on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and that of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Members who do no receive the Notice may download it from the above-mentioned websites.

The members are requested to provide their assent (FOR) or dissent (AGAINST) through e-voting only. The Company has engaged the services of National Securities Depositor imited ("NSDL") for the purpose of providing remote e-voting facility to the members. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notice. The remote e-voting period ommences on Sunday, November 30, 2025 at 9:00 a.m. and ends on Monday, December 29, 2025 at 5:00 p.m. The remote e-voting facility will be disabled by NSDL immediatel

In case of any issues / queries connected with e-voting, members may contact t NSDL at evoting@nsdl.com or call on toll free no. of NSDL at 022 - 48867000 / 022 24997000 or investor.relations@jaispring.com.

he Board of Directors of the Company has appointed M/s RSM & Co., Practicing Company Secretary (Membership No. 4468) as the Scrutinizer for conducting this Posta Ballot process through remote e-voting, in a fair and transparent manner. The results along with the Scrutinizer Report of the Postal Ballot by e-voting will be announced within working days of the conclusion of the e-voting process and the same shall be available o he websites of the Company, NSDL, NSE and BSE.

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
SANGHVI BEAUTY & TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (UNDER CIRP)
Operating / dealing in all kinds and varieties of beauty, cosmetics and
skincare products under the Brand name 'MvGlamm' through varieties and

RELEVANT PARTICULARS

For Jamna Auto Industries Ltd

Place: Delhi Date: November 25, 2025

Name of the Corporate Debto

along with PAN/ CIN/ LLP No

URL of website
 Details of the place where the

Address of the Registered Office

majority of fixed assets are located

Ouantity and value of main products/

Further details including last available

financial statements (with schedules)

rvices sold in the last financial year

5. Installed capacity of main products/

Number of employees/workmen

of two years, lists of creditors.

of the process are available at

10. Last date of receipt of expression

of interest

11. Date of issue of the provisional list

12. Last date of submission of

13. Date of issue of the final list of

14. Date of issue of information

resolution plans Process email id to submit EOI
 Details of the Corporate Debtor

of prospective resolution applicants

objections to the provisional list

prospective resolution applicants

memorandum, evaluation matrix

and request for resolution plans to

prospective resolution applicants

registration status as MSME

Aegis Resolution Services Private Limited

Agis resolution Services Firste Limited
As Resolution Professional of Sanghvi Beauty & Technolo
Registration No. IBBI/IPE-0118/IPA-1/2022-23/50041
Authorization for Assignment valid till 30th June 2026
Reg. Address: 106, 1st Floor, Kanakia Atrium 2,
Cross Road A, Behind Courtyard Marriott,
Chakala, Andheri East, Mumbai - 400093

is available at:

Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code

Prayeen Lakher Company Secretary & Head-Lega

SANGHVI BEAUTY & TECHNOLOGIES

CIN: U72900PN2015PTC156163

Pune - 411005 Maharashtra.

https://www.myglamm.com

Sanghvi House,105/2, Shivaji Naga

Corporate Debtor except for inventory,

As per audited financial statements for

FY 2023-24, the turnover from sale of

here are 14 employees on rolls of the

etails can be sought by emailing:

cirp-sanghvibtpl@beleyur.in

can be sought by an email to cirp-sanghvibtpl@beleyur.in Friday, 26th December 2025

Monday, 5th January 2026

Saturday, 10th January 2026

Tuesday 20th January 2026

aturday, 24th January 2026

uesday, 24th February 2026

Date: 26-11-2025 Place: Mumbai

cirp-sanghvibtpl@beleyur.in

roducts / services was INR 346.58 Cro

The detailed Invitation for Expression of Interest (EoI) mentioning Eligibility Criteria

ncy Commencement Date

PRIVATE LIMITED

ompany

assigned to them in the Letter of Offer dated November 14, 2025 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE"), and also filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBIICDR Regulations).



JAINEX AAMCOL LIMITED

Our Company was originally incorporated in the name and style of "Anglo American Marine Company Limited" as a Public Limited Company under the Companies Act, 1913 on April 15,1947 by the Registrar of Companies, Bombay. The name of the Company was changed to Aamcol Tools Limited pursuant to a fresh Certificate of Incorporation granted by the Registrar of Companies, Bombay on June 05, 1984. The name of the Company was once again changed to "Jainex Aamcol Limited" and a fresh Certificate of Incorporation pursuant to the name change was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai on May 24, 2005. For details of

changes in name and registered office of our Company, see "General Information" on page 31 of the Letter of Offer.

Registered Office: L-3, MIDC Industrial Area., P.O. Chikalthana, Aurangabad- 431 006, Maharashtra, India

Tel: +91 2406614480 / +91 22 22002252 Fax: +91 240 2482208 / +91 22 22002254

Contact Person: Sonam Dubey Company Secretary & Compliance Officer Email: info@jnxaamcol.co.in Website: www.jainexaamcol.com Corporate Identity Number: L74999MH1947PLC005695 OUR PROMOTERS: BHAGAT SINGH DUGAR

ISSUE OF UP TO 7,48,169 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF Rs.10/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF Rs.120 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF Rs.110 PER EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RS.120 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF RS.110 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO RS. 897.80 LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ONE (1) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY TWO (2) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 65 OF THE LETTER OF OFFER Issu

	Issue Programme:								
	ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION**	ISSUE CLOSES ON#						
	MONDAY, DECEMBER 01, 2025	THURSDAY, DECEMBER 04, 2025	TUESDAY, DECEMBER 09,2025						
**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a n									

that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date. # Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

THE ISSUE PRICE OF EACH EQUITY SHARE IS TWELVE TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE Simple, Safe, Smart way of \*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to Application - Make use of it!!! issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section

Facilities for application in this Issue:

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use either the ASBA process only. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details refer to "Terms of the Issue - Making of an Application through the ASBA process" on page 67 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS

Pursuant to provisions of the SEBLICDR Regulations and the SEBL Rights Issue Circulars and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Equity Shareholders will be credited in their respective denat account and shall be admitted for trading on the Stock Exchange under the ISIN INE280F20019 to requisite approvals. For details of credit of the Rights Entitlements, see "Terms of the Issue - Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders" on page 77 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. The Shareholder who failed to provide their demat details in the stipulated time then their rights entitlement shall lapse and shall not be eligible to apply in this issue.

The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by email, post, speed post, courier, or hand delivery at www.in.mpms.mufg.com so as to reach to the Registrar no later than two Working Days prior to the Issue Closing Date.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat ense escrow account opened by our Company.

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Procedure for application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 70 of the Letter of Offer.

Procedure for Application through the ASBA process: Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application, For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/ OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=34. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, please refer the above-mentioned link

Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form
Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit

of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY ATLEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE. SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

Allotment of rights equity shares in dematerialised form: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialised form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date Dispatch of the Letter of Offer (LOF) and application: The dispatch of the LOF and the application form was completed on

Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in a demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of IEPF authority; or (c) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (d) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Coulty Shareholders to our Company or Registrar; or (e) credit of Other important links and helpline

the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (f) the ownership of the Equity Shares under dispute, including any court proceedings, as applicable or g) non-institutional equity shareholders in the United States.

Applications on Plain Paper under ASBA process An Eligible Equity Shareholder who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India.

Alternatively, Eligible Equity Shareholders may also use the Application Form available online on the websites of our Company, the Registrar to the Issue or the Stock Exchange to provide requisite details.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received

The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and

should contain the following particulars: Name of our Issuer, being Jainex Aamcol Limited; Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our

Company or the Depository): Registered Folio Number/ DP and Client ID No.;

 Number of Equity Shares held as on Record Date Allotment option preferred - only Demat form

Number of Rights Equity Shares entitled to;
Number of Rights Equity Shares applied for;

Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any; Total number of Rights Equity Shares applied for within the Right Entitlements;
 Total amount paid at the rate of Rs. 120/- per Rights Equity Share;

Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB

such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account:

Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear

in the records of the SCSB): • All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in

States Securities Act of 1933, as amended ("US Securities Act") or any United States state securities laws, and may not be offered, sold,

This advertisement is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof ("United States") or to, or for the purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered in India but not in the United States. If we understand the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered in India but not in the United States. If we understand the offering to which this application relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement in the United States. Accordingly, I/ we understand this application should not be forwarded to or transmitted in or to the United States at any time. I/ we confirm that I/ we are not in the United States and understand that neither us, nor the Registrar or any other person acting on behalf of us will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who we, the Registrar or any other person acting on behalf of us have reason to believe is a resident of the United States "U.S. Person" (as defined in Regulation S) or is ineligible to participate in the Issue under the securities laws of their jurisdiction.

If We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the iurisdiction of our residence.

If We understand and agree that the Rights Entitlement and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/We (i) am/are, and the person, if any, for whose account I/we am/are acquiring such Rights Entitlement, and/or the Equity Shares is/are outside the United States or a Qualified Institutional Buyer (as defined in the US Securities Act), and (ii) is/are acquiring the Rights Entitlement and/or the Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulation S or in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/We acknowledge that the Company, their affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations

In cases where multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demand account or in demat suspense escrow account, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain pape Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at www.in.mpms.mufg.com Our Company and the Registrar at www.in.mpms.mufg.com Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBAAccounts on or before the Issue Closing Date

Last date for Application: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is Tuesday, December 09, 2025, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the

If the Application Form is not submitted with a SCSB nor uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, "- Basis of Allotment" on page 85 of the Letter of Offer.

Procedure for Renunciation: The Investors may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges; or (b) through an off-market transfer, during the Renunciation Period. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism. Investors may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Investors who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements. The Lead Manager and our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Investors. Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished

a On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company.

In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchange under ISIN INE280F20019 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchange for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time

The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is one Rights Entitlement

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from Monday December 01, 2025 to Tuesday, December 09, 2025. (both days inclusive).

The Investors holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered.

stock-brokers by quoting the ISIN INE280F20019 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade. The Investors can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account. The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE under automatic order matching mechanism and on 'T+1 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-

trade basis. Upon execution of the order, the stock-broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and the SEBI

b.Off Market Renunciation

The Eliaible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an offmarket transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date to enable Renouncees to subscribe to the Equity Shares in the Issue.
The Investors holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository

participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN INE280F20019, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Investors can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants. Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

Listing and trading of the Equity Shares to be issued pursuant to this Issue

The existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip code: 505212 under the ISIN: INE280F01019). The Rights Equity Shares shall be credited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing/trading approvals from the Stock Exchanges. Upon receipt of such listing and trading approvals, the Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Equity Shares and thereafter be available for trading and the temporary ISIN shall be permanently deactivated in the depository system of CDSL and NSDL.

Disclaimer clause of BSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited."

Availability of issue materials: In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent/dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them. Investors can access the Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe

for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of: a) our Company at www.iainexaamcol.com:

b) the Registrar to the Issue at www.in.mpms.mufg.com and

c) the Stock Exchange at www.bseindia.com. lotment Banker Accoun

For Risk Factors and other details, kindly refer page no. 17 of the Letter of Offer

The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:

a.Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: www.in.mpms.mufg.com

c. Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form; www.in.mpms.mufg.com

d.Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non- resident Eligible Equity Shareholders www.in.mpms.mufg.com



Company Secretary and Compliance Officer Sonam Dubey Company Secretary and Compliance Officer
L-3, MIDC Industrial Area., P.O. Chikalthana,
Aurangabad- 431 006, Maharashtra, India Tel: +91 2406614480 / +91 22 22002252 Fax: +91 240 2482208 / +91 22 22002254

Email: info@jnxaamcol.co.in

MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED (Formerly Link Intime India Private Limited)
C-101, 247 Park L B S Marg Vikhroli (West) Mumbai 400 083 Telephone: +91 (22) 4918 6200; Fax No: 022 4918 6060 Contact Person: Shanti Gopalkrishnan Email: jainexaamcol.rights2025@linkintime.co.in; Website: www.in.mpms.mufa.com Investor Grievance ID: jainexaamcol.rights2025@linkintime.co.in

SEBI Registration No.: INR000004058

Website: www.jainexaamcol.com Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 65 of the Letter of Offer.

• In case of NR Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO Account

Disclaimer: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e BSE at www.bseindia.com and the website of the company at www.jainexaamcol.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning or page 17 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, "Restrictions on Purchases and Resales" on page 92 of the Letter of Offer and shall include the following:

and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under

"I/We understand that neither the Rights Entitlement nor the Rights Equity Shares have been, and will be, registered under the United

"US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States

### Market wisdom, straight from the sharpest minds in the game.

Cut through the noise every day with expert columns that decode trends before they unfold, only in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



**Business Standard Insight Out** 

स्थान : जनकपुरी, दिनौंक : 25--11-2025

प्रामिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फॉर्म नं. आईएनसी-26 िकंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम **30 के अनुसार**] एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र खंडपीठ दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

मैसर्स स्किलवे कंस्ट्रवशन प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999DL2021PTC389762) जिसका पंजीकृत कार्यालय एच. न. 158, 1ली मंजिल, बीएलके-डी, पीकेटी-16, सेक्टर-3 रोहिणी. लैंडमार्क नजदीक जैन मंदिर, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली, भारत, 110085 पर स्थित है, के मामले ...याचिकाकत

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**रा. रा. क्षेत्र** दिल्ली" से "केरल राज्य" में उसके पंजीकत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 22 **नवंब**र 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति टउअ-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कंपनी रजिस्टार के पतेः आरओसी बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजे: आवेदक की ओर से और उसके लिए

अब्दल्ला अबबाकर दिनांक: 25.11.2025 निदेशक डीआईएनः 09784797 स्थानः दिल्ली

स्किलवे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

#### सार्वजनिक सुचना केंद्रीय सरकार के समक्ष, रजिस्ट्रार ऑफ

कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की चारा 13

की उप-धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में वनक्रेस्ट इन्फ्रा एलएलपी

(एलएलपीआईएन: एसीएच--9703) जिसका पंजीकृत पता : 206, दूसरी मंजिल, दीनार भवन, बिल्डिंग नंबर 44,नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली- 110019 ...आवेदक / याचिकाकर्ता एलएलपी

सर्वसाधारण को संधित किया जाता है कि **"वनक्रेस्ट इनक्रा** 

एलएलपी" ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा को एक याधिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें। पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने की अनुमति मांगी गई है। एलएलपी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तादित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें जनके हित का प्रकार और तराके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019 पर गंजीकृत डाक द्वारा मेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी को उनके

205, दूसरी मंजिल, दीनार भवन, बिल्डिंग नंबर 44, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली—110019

नेम्नलिखित पंजीकत कार्यालय पते पर भी भेजें ।

आवेदक के लिए और उसकी ओर वनक्रेस्ट इन्फ्रा एलएलपी वरुण विस्मानी (नामित साझेदार) दिनांक: 25 नवंबर 2025 स्थानः नई दिल्ली बीपीआईएन: 00389509

प्ररूप संख्या यूआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण

के संबंध में सुचना का विज्ञापन (कंपनी अविनियम, 2013 की बारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में

सुचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की थारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्ताबित है, की "रोज़बुड इंटरनेशनल" एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय गर के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता

. कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार है: सभी प्रकार के फनऍचर, सजावटी वस्तओं और हाईवेयर सामग्रियों का निर्माण, आयात, निर्यात और

. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतितिपि का निरीक्षण खसरा नंबर-582, गांव हिरन कुदना, वोल्टास गोदाम के पास, पश्चिमी दिल्ली - 110041 स्थित पंजीवृत कार्यालय में किया जा सकता है। सचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस

आवेदन पर आपति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

रोजवड इंटरनेश्ननल के लिए और उसकी ओर से

**गौतम गुप्ता** (भागीदार) तिथि : 26.11.2025 अंक्र अग्रवाल (भागीदार) स्थानः नई दिल्ली

#### प्ररूप संख्या युआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के माग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और

कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014

के नियम 4 (1) के अनुसरण में}

सुचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद. लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की "इन्फ्राकीज़ टैक्नोलॉजीज़ एलएलपी (एलएलपीआईएनः एसीबी-5994)" एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याप XXI के भाग

1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में

डांचे का निर्माण, अनुबंच, नवीनीकरण, डिजाइन,

कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: भवनो, गोदामो, उपयोगिताओं और संबंधित सिविल कार्यों और धातु और औद्योगिक वस्तुओं में व्यापार सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक या निजी बुनियादी

पंजीकृत किया जाए।

इंजीनियरिंग और रखरखाव प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण बी-0521, पुरी 81,

हाई स्ट्रीट, सैक्टर-81, फरीदाबाद-121004 स्थित पंजीकत कार्यालय में किया जा सकता है। सुचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपति है तो वह लिखित में अपनी

आपत्ति इस सचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, बेंद्रीय पंजीकरण बेंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉपोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला नुइगांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

इन्प्राकीज़ टैक्नोलॉजीज़ एलएलपी की ओर से 1. ऑकत गोयल (नामित साझेदार) महक जैन (नामित साझेदार)

तिथि : 25.11.2025. स्थान : फरीदाबाद

"फॉर्म नं. यूआरसी—2"

अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में खबना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और (पंजीकरण हेत् अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

एतदद्वारा यज्ञ सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसरण में, पंद्रह दिन के बाद लेकिन तीस दिन की समाप्ति से पहले केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संख्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर ६,७,८, संक्टर ५, आईएमटी मानेसर, जिला गुडगांव हरियाणा-122050 के रजिस्ट्रार को एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है कि 'वीएसके एलटेक सॉल्यशंस एलएलपी' एक एलएलपी को कंपनी अधिनिधम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। कंपनी के मुख्य सद्देश्य इस प्रकार है-

एं) सींपटवेयर सर्विस और सॉल्यूशन, टर्नकी सॉल्यूशन, एंड टू एंड सॉल्यूशन सिस्टम इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हाईवेयर, पेरिफेरेल्स, नेटवर्किंग ढेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस और दूसरी सहायक गतिविधियों के जेवलपमेंट सहित इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्युशन को ढेवलप करना, स्थापित करना, मेंटेन करना, मार्केट करना, एक्सपोर्ट करना और लाइसेंस देना।

बी) भारत या विदेश में सॉफ्टवेयर, फैकेज और एप्लिकेशन, क्लाइट सर्वर एप्लिकेशन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग से जुडी सर्विस ओर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दूसरी सर्विस को डेवलप करने, डिजाइन करने मेंटेन करने, बेचने का बिजनेस करना।

तीं) कंपनी की किसी मी एविटविटी के संबंध में रिसर्च और डेवलपमेंट का बिजनेस करना, उसे करना और दूसरे लोगो द्वारा इसे करने का बढ़ावा देना, और ऐसे किसी भी दसरे एरिया में जिससे कंपनी के बिजनेस को या कंपनी के साथ बील करने वाले या होने की संभावना वाले लोगों को फायदा हो सकता है रिसर्च स्टेशन, फैसिलिटी और एस्टैब्स्शिमेंट बनाना, मेंटेन करना और ऑपरेट करना और आम तौर पर कंपनी और दूसरे लोगों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में शामिल होना और उसके नतीजों का हिसाब रखना।

प्रस्तावित कंपमी के द्वापट मेमोरेंद्रम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी एच नं. अर्च-51, जी / एफ, जंगपुरा एक्सटेंशन, पोस्ट ऑफिस के पास, जंगपुरा, साऊथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, इंडिया-110014 पर ऑफिस में देखीं जा सकती है।

एतदद्वारा सुधना दी जाती है कि इस एप्लीकेशन पर अधित करने वाला कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉपीरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) प्लॉट नंबर 6,7.8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुडगांव हरियाणा—122050 के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है, और इसकी एक कॉमी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी भेज

दिनाक : 25.11.2025

आवंदक का नाम 1. अनीता शमा 2. आयुषी शर्मा खजाची

सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1992PLC051462

© CSL Finance Limited पंजीकृत कार्यालयः ४१०-४१२, १८/१२, चतुर्थ तल, डब्ल्यू.ई.ए.,

आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 टेलीफोन: 0120-4290650, ईमेल: investor@cslfinance.in, वेबसाइट: www.cslfinance.in भौतिक रोयरों के लिए स्थानांतरण अन्रोधों को पूनः दाखिल करने हेत्

विशेष खिड्की के संबंध में अंतिम अनुस्मारक सूचना

भौतिक शेयरों के लिए स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने हेतु विशेष खिड़की सेबी के सर्कूलर नं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97, तारीख 02 जुलाई, 2025 के मृताबिक, कंपनी भौतिक शेयरधारकों के लिए शेयरों के स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने के अनुरोध को जमा करने के लिए एकमुश्त विशेष खिड़की उपलब्ध करा रही है। यह विशेष खिड़की 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी और उन मामलों पर लागू होगी जहां मूल शेयर हस्तांतरण अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से पहले जमा की गई थीं और दस्तावेजीकरण, प्रक्रिया में कमी या किसी और वजह से वापस कर दी गईं/अनअटेंडेड हो गईं या निरस्त कर दी गईं। हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल करने किए गए शेयरों को इस खिड़की के दौरान सिर्फ विभौतिकीकृत रूप में प्रोसेस किया जाएगा। पात्र शेयरधारक अपनी स्थानांतरण अनुरोध को जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) एमएएस सर्विसेज लिमिटेड टी–34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज II, नई दिल्ली-110020 को जमा कर सकते हैं।

केवाईसी अपडेट करें और विभौतिकीकृत शेयर्स को डीमैट मोड में बदलें। जिन शेयरहोल्डर्स के पास विभौतिकीकृत रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी केवाईसी अपडेट करें और अपने विभौतिकीक शेयर सर्टिफिकेट्स को डीमैट फॉर्म (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म) में बदल लें। शेयरहोल्डर्स से यह भी अनुरोध है कि वे अपने दावा न किए गए लाभांश की राशि का दावा करें, नहीं तो, इसे सात साल खत्म होने के बाद शेयर्स के साथ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (आईईपीएफए) को समय पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के लिए

दिनांक : 25.11.2025 स्थान : नोएडा

प्रीति गुप्ता (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

### ऋण वसुली अधिकरण-II, दिल्ली के समक्ष

चौथा तल, जीवन तारा विल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 व 13 के साथ पठित, बैंक एवम विलीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसूली की घारा 19(4) के तहत सूचना के मामले में दिनांक 28.07.2025

टीए नं.1274/2023

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ......आवेदक मैसर्स डी के इलेक्ट्रिकल्स एवं अन्य ......प्रतिवादी

सेवा में, प्रतिवादी

ही1. मैसर्स ही के इलेक्टिकल्स इसके मालिक श्री धर्मेन्द्र कुमार शाह पुत्र रामकृष्ण शाह के माध्यम से

निवासी आरजेड-16-ए/340 गली नं.10-ए जगदम्बा बिहार बेस्ट सागरपुर नई दिल्ली-46 अन्य पताः आरजेड-16-ए/351 गली नं.10-ए जगदम्बा बिहार बेस्ट सागरपुर

नई दिल्ली-46 डी2. श्रीमती शोभा देवी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार शाह निवासी आरजेड-16-ए/340 गली नं.10-ए जगदम्बा बिहार बेस्ट सागरपुर नई दिल्ली-46

चुंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने रु.2,10,69,913/- (दो करोड़ दस लाख उनहत्तर हजार **नौ सौ तेरह रूपये मात्र)** की वसुली के लिए आपके विरूद्ध एक मुकदमा दर्ज कराया है और

अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सुचना देते हुए आपको 17.12.2025 **को प्रातः** 11:00 बजे अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।

सभी मामलों को वीडियो कॉन्क्रोंसिंग या भौतिक के माध्यम से लिया जा रहा है और इसके (1) सभी अधिवक्ता / वादीगण को "सिस्को वेबैक्स" एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड

 "मीटिंग आईडी" एवं "पासवर्ड" सुनवाई की तिथि के लिए माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार द्वारा क्या मामलों में डीआरटी आधिकारिक पोर्टल "drt.gov.in" पर दैनिक बाद सुबी में ही प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) किसी भी आपातकालीन स्थिति में एडवोकेटस/लिटिगेंटस संबंधित अधिकारी से फोन नं. 23748478 पर सम्पर्क कर सकते हैं। आज 28 जुलाई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।

की मुहर

अधिकरण के आदेशानुसार, अनुभाग अधिकारी, डीआरटी-II, दिल्ली

## डिजिटल लिमिटेड

सीआईएन : L63122DL1985PLC373314

पंजीकत कार्यालय : 403 प्रभात किरण. 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली— 110008 दूरभाष : 011-45142374 निगम कार्यालय : कैमौस्टी बिल्डिंग, प्लॉट संख्या 1, 9वीं मंजिल, सेक्टर 16ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301 दरभाष : 0120-4751818. वेबसाइट : www.quintdigital.in ईमेल : cs@thequint.com भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः जमा करने हेतू विशेष विंडो के संबंध में सूचना

26 जुलाई, 2025 और 26 सितंबर, 2025 को प्रकाशित हमारे पूर्व समाचार पत्रों के विज्ञापनों के अनुसरण मं, हम पुनः यह बताना चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र संख्या 10 / 2025 के माध्यम से, 26 जुलाई, 2025 को, 26 सितंबर ... सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी– पीओडी / पी / सीआईआर / 2025 / 97 दिनांक 2 जुलाई 2025 के तहत भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुन : प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष विंडो शुरू की गई है। उक्त परिपत्र के अनुसार, जिन निवेशकों ने 01 अप्रैल, 2019 (जिस तिथि से प्रतिभूतियों का भौतिक रूप में हस्तांतरण बंद कर दिया गया था) से पहले भौतिक शेयरों के लिए हस्तांतरण अनरोध प्रस्तत किए थे, और जिनके अनुरोध दस्तावेजों / प्रक्रिया / या अन्य कारणों से अस्वीकार / वापस कर दिए गए थे / उन पर ध्यान नहीं दिया गया था, उन्हें अब आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐसे हस्तांतरण अनुरोध

पुन : प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। निवेशक 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक की छह महीने की विशेष अवधि के दौरान, आवश्यक दस्तावेजों और किमयों को दूर करने के साथ, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास अपने पूर्व अनुरोध पुन : प्रस्तुत कर सकते हैं। निवेशक नीचे दिए गए किसी भी पते पर कंपनी या आरटीए को दस्तावेज भेज सकते हैं:

क्विंट डिजिटल लिमिटेड स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट प्रति, कंपनी सचिव, पता– ४०३, प्रभात

17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली, 110008,

लिमिटेड रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट इकाई : क्विंट डिजिटल लिमिटेड पता– ए—506, दत्तानी प्लाजा, अंधेरी कुर्ला रोड, सफेद पल, अंधेरी–पूर्व, मुंबई–महाराष्ट्र 400072 ईमेल : pravin.cm@slrylinerta.com ईमेल : cs@thequint.com

अनुपालन में सेबी के दिनांक 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, स्थानांतरण के लिए पुनः जमा की गई प्रतिभृतियाँ (जिनमें आज की तिथि तक कंपनी/आरटीए के पास लंबित अनुरोध भी शामिल हैं) ऐसे स्थानांतरण–सह–डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, केवल डीमैट रूप में जारी हम उन सभी निवेशकों से आग्रह करते हैं जिन्होंने पूर्व में स्थानांतरण अनुरोध प्रस्तुत किए थे और जिन्हें कमियों

के कारण अभी तक शेयर प्राप्त नहीं हुए हैं, कि वे निवेशकों के हित में शुरू की गई इस विशेष सुविधा क क्विंट डिजिटल लिमिटेड के लिए

दिनांकः 25 नवंबर, 2025

तरुण बेलवाल कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या ए३९१९०

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड optiemus

CIN: L64200DL1993PLC054086 पंजीकृत कार्यालय: के -20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर - 11, नई दिल्ली-110024 कॉर्परिट कार्पालय: डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 वेबसाइट: www.optiemus.com | ईमेल: info@optiemus.com | फोन: 011-29840906

प्रेस विज्ञापन

ाद द्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नतिखित शेयर प्रमाणपत्र खो जाने/गुम हो जाने की सूचना दी गई । और ऐसे शेयर प्रमाणपत्रों के दावेदार ने दुखिकट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी/आरटीए के आवेदन किया है:

फोलियो संख्या	शेयरधारक का नाम	प्रमाणपत्र संख्या(एँ)	विशिष्ट संख्या(एँ)	शेयरों की संख्या
0000298	करोडी मल बंसल	21224- 21227	2121501-2121900	400
		21271-21290	2126201-2128200	2,000
	1	21301- 21304	2129201- 2129600	400
		21321-21321	2131201-2131300	100
		21324- 21324	2131501- 2131600	100
	1	21328- 21334	2131901-2132600	700
		21340- 21343	2133101-2133500	400
		21350- 21353	2134101- 2134500	400
	1	21362- 21368	2135301- 2136000	700
		21373-21373	2136401-2136500	100
		कुल	7-7-07-5	5,300

कोई भी व्यक्ति जिसके पास उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्र के संबंध में कोई दावा(वें) है इस नोटिस के प्रकाश-के 15 दिनों के भीतर इस तरह के दावे को '**ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड**' कंपनी के पास डी-348. सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 में स्थित उनके कॉर्पोरेट कार्पालय में दर्ज कराना चाहिए य info@optiemus.com पर लिखें, जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी उप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आगे बढेगी।

दिनांक: 25 नवम्बर 2025

विकास चंद्रा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के लिए

हस्ता/



स्थानः दिल्ली

स्थान : नीएडा

जगना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन: L35911HR1965PLC004485

पंजीकृत कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर - 135001, हरियाणा कॉपोरेंट कार्यालय: युनिट नंबर 408,4वीं मीजल, टाबर-बी, वाटिका माइंडस्केप्स, सेक्टर-27डी, एनएच2, फरीदाबाद-121003( हरिवाणा )

दूरभाष. 0129-4006885; वेबसाइट: www.jaispring.com इंमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com

पोस्टल बैलट की सुचना

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पटित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102, 108, 110 और अन्य लाग् प्रावधानों, यदि कोई हो, , भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमन 44 और कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और सेबी हारा जारी इस विषय पर सभी लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 01 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2028 तक 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री आर. एस. जीहर (डीआईएन: 00746186) की नियक्ति के लिए विशेष प्रस्ताव केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों के विचार के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

कंपनी ने 24 नवंबर, 2025 को पोस्टल बैलेट नोटिस ('नोटिस') केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दिया है, जिनके इं-मेल पते कट-ऑफ तिथि यानी वृधवार, 19 नवंबर, 2025 को डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत थे। जिन सदस्यों के ईमेल पते आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे अपने ईमेल पते को आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ नोटिस में उल्लिखित के अनुसार पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। नोटिस, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की भौतिक प्रतियां सदस्यों को नहीं भेजी जा रही हैं।

कपया ध्यान दें कि केवल वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर आरटीए/डिपॉजिटरी द्वारा प्रवंधित सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, रिमोट ई-वीटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। जिस तरह से भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिनके ईमेल पते कटऑफ तिथि तक पंजीकृत नहीं हैं, ये नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना योट डाल सकते हैं। नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://jaispring.com/annual-and-financial-report- financial.aspx?financial-year=2025-2026 पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है। जिन सदस्यों को नोटिस नहीं मिला है ये इसे उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि ये केवल ई-बोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति (के पक्ष में) या असहमति (विरुद्ध) प्रदान करें। कंपनी ने सदरमों को रिमोट ई-चोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया नीटिस में दी गई है। रिमोट ई-चोटिंग अवधि रविवार, 30 नवंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और सोमधार, 29 दिसंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा।

 ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी मुद्दे/प्रश्न के मामले में, सदस्य एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल के टोल फ्री नंबर 022 - 48867000/022 - 24997000 पर कॉल कर सकते हैं या investor.relations@jaispring.com पर मेल भेज सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-घोटिंग के माध्यम से इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मैसर्स आरएसएम एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्नेटरी (सदस्यता संख्या 4468) को संबीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग द्वारा पोस्टल बैलेट की संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणाम ई-वोटिंग प्रक्रिया के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और यह कंपनी, एनएसडीएल, एनएसई और बीएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध होंगे।

> जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए प्रवीण लखेरा कंपनी सचिव एवं प्रमुख-विधि

दिनांकः 25 नवंबर, 2025

The wort special way to say you care आर्चीज लिभिटेड

@rehies

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं 191एफ, सेक्टर-4, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050 सीआईएन: L36999HR1990PLC041175,

वेब : www.archiesonline.com और www.archiesinvestors.in ईमेल : archies@archiesonline.com, दूरभाष : +91 124 4966666 डाक मतपत्र और दूरस्थ ई-वोटिंग की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और 22, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ('एसएस–2') द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक, प्रत्येक संशोधित, सामान्य परिपत्र संख्या १४ / २०२० दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १७ / २०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२० और समय—समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 है जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ('एमसीए परिपत्र') ई–वोटिंग के माध्यम से सामान्य बैठकें आयोजित करने / डाक मतपत्र प्रक्रिया संचालित करने तथा किसी अन्य लाग् कानून, नियम और विनियमों के लिए कि नीचे दिए गए संकल्प को कंपनी के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र द्वारा केवल इलेक्टॉनिक माध्यम ('रिमोट ई–वोटिंग') के माध्यम से मतदान करके अनमोदन के लिए एउनाविन किया जाना है।

Ľ	97 10	म् सिर् अर्रताचित विभवा जाता है।						
100	क्र. सं.	विवरण	प्रस्ताव का प्रकार					
	1	मैसर्स दयाल एंड मौर, कंपनी सचिवों की लगातार 5 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति।	साधारण प्रस्ताव					
	2	श्री रिजुल बंसल की कंपनी के अकार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष प्रस्ताव					

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मंगलवार 25 नवंबर, 2025 को उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से डाक मतपत्र नोटिस भेजा है, जिन्होंने कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी एमयूजीएफ इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं और जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के साथ बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख यानी 14 नवंबर 2025 तक दिखाई देता है। मतपत्र फॉर्म के साथ डाक मतपत्र नोटिस की भौतिक प्रति नहीं भेजी जा

पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://archiesinvestors.in/investors/, स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई और एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड https://instavote/linkintime.co.in/ पर भी उपलब्ध होगा।

कंपनी ने इंस्टावोट की सेवाएँ ली हैं, जिससे सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में दी गई

ई-वोटिंग के लिए निर्देशः

स्थान : गुरुग्राम

दिनाँक : 25-11-2025

रिमोट ई—वोटिंग बुधवार, 26 नवंबर 2025 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होकर गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक चलेगी। इस अवधि के दौरान, कट—ऑफ तिथि तक भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 तक रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सहमति (समर्थन में) या असहमति (विरोध में) दर्ज कराएँ। सदस्यों के मताधिकार कट–ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। वे सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 (पैन. केवाईसी विवरण या उसमें परिवर्तन/अपडेशन के लिए फॉर्म) के साथ पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति और पते के प्रमाण के रूप में किसी भी दस्तावेज की स्व–सत्यापित प्रति (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मास्क्ड आधार, आदि) कंपनी के आरटीए को नीचे दिए गए पते पर या enotices@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल द्वारा जमा करके इसे अपडेट

कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') ने शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मैसर्स दयाल एंड मौर कंपनी सेक्रेटरीज (सीओपी संख्याः 7142) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई—वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट के संचालन के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया।

यदि प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उन्हें ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि, यानी गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को पारित माना जाएगा, मानो वे शेयरधारकों की आम बैठक में पारित

परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड ('बीएसई'), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') (सामृहिक रूप से 'स्टॉक एक्सचेंज') और एमयुएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे, और कंपनी की वेबसाइट www.archiesinvestors.in पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। किसी भी प्रश्न के लिए, आप https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या enotices@in.mpms.mufg.com अथवा investorservices@archiesonline.com पर ईमेल लिख सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिए गए सभी निर्देशों और विशेष रूप से रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की विधि को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बोर्ड के आदेशानुसार

कृते आर्चीज लिमिटेड हस्ता. /-

(चिरंजीवी रामका) कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी (Q) pnb Housing

जनसता

Galliger anciding : Ant own shallon wore, 22, 8t aft, seed, and filest-110001, grown siz 011.23557171, 23357172, 23705414, desenge : www.pointeness शाखा कार्यालय :- सी2/21, फर्स्ट पतोर, सी स्नॉक, माता चानन देवी रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110056 तिषि के अनुसार संशोषित प्रतिभृति हित (प्रवर्तक) नियमावसी 2002 के नियम 3(1) के साथ

पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्मिमाँग तथा प्रतिभूति हित प्रयतंत्र अधिक्यम 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अंतर्गत सुवना 2002 (वहीं इसमें इसके उपरीत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अध्यय ।।। की बात 15/2) के आगंत हमारी जनकपुरी शरका के कार्यालय जी सी2/21, फर्स्ट फ्लॉर सी व्लॉक मा बनन देवी रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110088 में स्थित है के मध्यम से मीग सुबना निर्मेश की थी। जका मीग सुबना जो है वह हमारे प्राधिकृत अधिकारी के नाध्यम से मीथे वर्षित क्ष लगे उधारकवांओं / सह-उचारकवांओं /मारंटरों को निर्मत की मई थी और ऐसा इससिये किया गया वा क्योंकि आपके खाते को किसती / ध्याप कर भुगतान न करने के कारण मारतीए रिकर्व बैंक 🗸 राष्ट्रीय आवासन बैंक के विकानिर्देशों के अनुसार अनिवादनकारी परिचयिता के रूप में पर्गीकृत कर दिया नवा था। एस की विषयकरा को है यह मुख्यन, ब्याज इत्यादि व किवलों के मुगतान में आपके द्वारा की गई पूर्व हैं। बकायाँ पति का परलेखन नीवे लालिका में किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनेक करानों से, हम मानते हैं कि आर मींग सुवना लनानुपालन करने से बन एडे हैं और इसलिये हम एक अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत भी अनिवार्य वन चुनी इस मींग सूचना का यह फकाशन कर रहे हैं। आपको एतन्हारा इस मीं सबना के प्रकारन की लिया से 🖎 दिनों की एकाबीर के सीतर पीएनबीएबएफरन को अधानन ब्याज और शकतों के साथ निम्न वासिका में अंकित राष्ट्रि का स्वाधान करने का निर्देश देते 🤅 क्तान करने में विफल होने पर विएनवीएकएक्ट्रल जो है वह उस अधिनियम की धारा (s/a) के सकी या किसी भी प्रक्रधान के तहत सभी प्रतिमृत परिसंपतियों या इनमें से किसी एक या अधिव के विरुद्ध अनिवार्य कार्रवाई / उपाय करेगी, जिसमें उधारकर्ताओं और गारटरों की इतिमृत परिस्पतियों पर अधिवृद्धण किए जाने की कार्रवाई मी सम्मितित होगी। आवका ध्यान वितीय परिसंपतियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-भाग (8) के प्रायधानी की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिस भंतर्वत आप निजी सबि द्वारा अनाव में कोटेकर व निविदा निजीवत करके सार्वजनिक नीतामी द्वारा प्रतिमृत परिशयतियों के विक्रयार्थ सुदन्त के प्रकारन जी तिथि तक ही पीएनबीएचएकए

द्वारा कल्कुम रामस्य लागतो, प्रमारो एवं कर्को के साथ ककार्य की संपूर्ण लोके का पुगतान कर सकते हैं / यसे चुका सकते हैं। कृष्या प्रमान दें कि पवि निजी साथ जावता वानारा व कोटेकने व निविदा निजीकत करके त्वर्वजनिक नीत्वारी द्वारा प्रतिभूत परिवद्धतियों के विकासते जूनना के प्रकारण से पूर्व पीएनबीएवएकएन हाल कल्कुम लगरन लागतों, प्रमारी एवं वार्यों के साथ वकार्य की संपूर्व राशि का भूगतान नहीं किया जाता है 🗸 उसे नहीं यूकाया जाता है तो इस अवधि के उपरीत और प्रतिभूत परिसंपत्ति(या) को ऋणमूक्ता करने के अधिकारी नहीं होगे। इसवे अतिरिक्त आयेको उत्त अधिनियम की भारा 15(13) के आर्थात विकास पट्टा के मध्यम से अथवा किसी सी अन्य विधि से उपयुक्त प्रतिसूत परिसर्गतियों का इस्तीतरण करने से प्रतिसंधित किया

क्र सं	ऋण खाता संख्या	ज्यातवार्त एवं यह-ज्यातवार्त का तक रचे पता	गारंटर का जाम एवं पता	क्यकपूज संपत्ति	भीग सूचना की तिथि	बीग सूचना विधि के अनुसार बस्राच गति
1.	HOU/ JAN/ 0816/ 307760 학원: ਯਾਤਰਾਵੀ	बीको जीते (विशेष (14000) और बीबन विशेष कुमा पंतिमा (181-14000) पत्त । स्थान पत्त- ३३ व्यक्ति म्हा - १ वेशा पत्त विश्वती लोकाई पत्त । स्थानी ४४, १ विश्वत, रेगानेत् विश्व प्रोच्या व्यक्ति स्थान १, १४, ४०० जीत प्रीव्य प्रमुख्या विश्व प्रोच्या व्यक्ति स्थान विश्वत व्यक्ति विश्वत व्यक्ति विश्वत व्यक्ति पत्ति प्रोच्या व्यक्ति स्थान प्रोच्या विश्वत व्यक्ति । स्थान	100	प्रावृत्तरी-२६४७ हे. टावर- ए. एसवंए बीन मॅहल, जीएच-वरएन, लेक्टर-12, उत्ताना ग्रीत, गीवन कुद्ध नगर, बेटर नोएस, जार प्रदेश - ३६१३४१	20.11.2025	<ul> <li>ठ. २०.४७ ६६६ १५/- (१४मी प्रमाणित लाख सैंचित्स हजार छह भी मेशा और पंहर मेरे म्दर्भ १६.11.2025 के शंतुसार कमापा</li> </ul>

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI

(SAST) REGULATIONS") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

### V.I.P. INDUSTRIES LIMITED

CIN: L25200MH1968PLC013914 Registered office: 5th Floor, DGP House, 88 C, Old Prabhadevi Road, Mumbai, Maharashtra, 400 025, Tel No.: +91 (22) 6653 9000; Website: www.vipindustries.co.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 3,70,56,229 (THREE CRORE SEVENTY LAKH FIFTY SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND TWENTY NINE ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF INR 2/- (INDIAN RUPEES TWO ONLY) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 26.03% (TWENTY SIX POINT ZERO THREE PERCENT) OF THE EXPANDED SHARE CAPITAL OF V.I.P. INDUSTRIES LIMITED ("TARGET COMPANY"), AT A PRICE OF INR 388.00/- (INDIAN RUPEES THREE HUNDRED AND EIGHTY EIGHT ONLY) PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE"), IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS"), FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY MULTIPLES PRIVATE EQUITY FUND IV ("ACQUIRER 1"), MULTIPLES PRIVATE EQUITY GIFT FUND IV ("ACQUIRER 2", AND TOGETHER WITH ACQUIRER 1, "ACQUIRERS"), TOGETHER WITH SAMVIBHAG SECURITIES PRIVATE LIMITED ("PAC 1"), MITHUN PADAM SACHETI ("PAC 2"), SIDDHARTHA SACHETI ("PAC 3") AND PROFITEX SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED ("PAC 4", AND TOGETHER WITH PAC 1, PAC 2 AND PAC 3, "PACS"), IN THEIR CAPACITY AS PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRERS, PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER")"OPEN OFFER").

This post offer advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by JM Financial Limited, the manager to the Open Offer ("Manager to the Offer" or "Manager"), in respect of the Open Offer, for and on behalf of the Acquirers and the PACs to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST)

This Post Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated July 2025 ("PA"); (b) the Detailed Public Statement that was published in Financial Express - English (all editions), Jansatta Hindi (all editions) and Navshakti - Marathi (Mumbai edition) on July 18, 2025 ("DPS"); (c) the Letter of Offer dated October 23, 2025, along with Form of Acceptance ("LOF"); and (d) the Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the DPS ("Pre-Offer Advertisement") that was published on October 31, 2025, in all the newspapers in which the DPS was published. This Post Offer Advertisement is being published in all the newspapers in which the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the LOF. The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open Offer:

1.	Name of the Target Company:	V.I.P. Industries Limited
2.	Name of the Acquirers and PACs:	Multiples Private Equity Fund IV (Acquirer 1) Multiples Private Equity GIFT Fund IV (Acquirer 2) Samvibhag Securities Private Limited (PAC 1) Mithun Padam Sacheti (PAC 2) Siddhartha Sacheti (PAC 3) Profitex Shares and Securities Private Limited (PAC 4)
3.	Name of the Manager to the Offer:	JM Financial Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer:	KFin Technologies Limited
5.	Offer Details:	
	a) Date of Opening of the Offer:	Monday, November 3, 2025
	b) Date of Closure of the Offer:	Monday, November 17, 2025
6.	Date of Payment of Consideration:	Thursday, November 20, 2025

De	Date of Payment of Consideration: etails of Acquisition:		Thursday, November				
SI. No.	Particulars	Proposed	in the LOF <sup>(1)</sup>	Act	uals <sup>(1)</sup>		
7.1	Offer Price (per Equity Share)	INR 3	388.00/-	INR 3	88.00/-		
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered in the Offer	3,70,56,229(2)				23,	23,623
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted in the Offer	3,70,	56,229 <sup>(2)</sup>	23,	623 <sup>(3)</sup>		
7,4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price)	INR 1,437,	78,16,852/- <sup>(2)</sup>	INR 91	,65,724/-		
7.5	the PACs before agreements/ public announcement		PAC 1; Nil (0.00%) PAC 2: Nil (0.00%) PAC 3: Nil (0.00%) PAC 4: Nil (0.00%)		: Nii (0.00%) ∰ (0.00%) ∰ (0.00%)		
7.6	Equity Shares acquired by way of agreements  Number  More Capital	Acquirer 1: 28, Acquirer 2: 31 PAC 1: 22,1: PAC 2: 83, PAC 3: 83,	58,544 (2.01%) <sup>(4)</sup> ,52,461 (2.21%) <sup>(4)</sup> 2,517 (1.55%) <sup>(4)</sup> 277 (0.06%) <sup>(4)</sup> 277 (0.06%) <sup>(4)</sup> Nil (0.00%)	Acquirer 1: 28,5 Acquirer 2: 31,5 PAC 1: 22,12 PAC 2: 83,2 PAC 3: 83,2	8,544 (2.01%) <sup>(5,0</sup> (2.461 (2.21%) <sup>(5,0</sup> (517 (1.55%) <sup>(5,0)</sup> (77 (0.06%) <sup>(5,0)</sup> (0.06%) <sup>(5,0)</sup> (0.00%)		
7.7	Equity Shares acquired by way of Open Offer  Number  Government of Equity Share Capital	Acquirer 1: 1,26 Acquirer 2: 1,39 PAC 1: 97,71 PAC 2: 3,67 PAC 3: 3,67	5,25,261 (8.87%) <sup>(2)</sup> 0,23,381 (9.78%) <sup>(2)</sup> 1,967 (6.86%) <sup>(2)</sup> 0,810 (0.26%) <sup>(2)</sup> 0,810 (0.26%) <sup>(2)</sup> 0,810 (0.00%)	Acquirer 1: 6 Acquirer 2: 1 PAC 1: 6.3 PAC 2: 2 PAC 3: 2	3,049 (0.01%) 3,876 (0.01%) 230 (0.00%) 34 (0.00%) ## (0.00%)		
7.8	Equity Shares acquired after Detailed Public Statement <sup>(7)</sup> • Number and price of Equity Shares acquired • % of Equity Share Capital		Nii Nii)	(1	Nil Nil)		
7.9	Post Offer shareholding of the Acquirers and the PACs  Number  Graph of Equity Share Capital	Acquirer 2: 1,70 PAC 1: 1,19,8 PAC 2: 4,51 PAC 3: 4,51	,83,805 (10.87%) <sup>(2)</sup> ,75,842 (11.99%) <sup>(2)</sup> ,4,484 (8.42%) <sup>(2)</sup> ,087 (0.32%) <sup>(2)</sup> ,087 (0.32%) <sup>(2)</sup> ,087 (0.00%)	Acquirer 2: 31, PAC 1: 22,18 PAC 2: 83,5 PAC 3: 83,5	66,593 (2.01%) <sup>(4)</sup> 61,337 (2.22%) <sup>(6)</sup> 6,747 (1.56%) <sup>(6)</sup> 511 (0.06%) <sup>(6)</sup> MI (0.00%)		
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public Shareholders <sup>(8)</sup>	Pre-offer	Post-offer(2)	Pre-offer	Post-offer		
	Number	6,93,63,107	3,23,06,878	6,93,63,107	6,93,39,484		
	% of Equity Share Capital	(48.72%)	(22.69%)	(48.72%)	(48.70%)		

(1) Percentage calculated based on the Expanded Share Capital as on the date of the LOF, i.e., 14,23,80,784 Equity Shares.

(2) Assuming full acceptance in the Open Offer. (3) All the 23,623 Equity Shares that were validly tendered in the Open Offer are in dematerialised form.

(4) Computed assuming full acceptance in the Open Offer and, consequently, no Tranche 2 Sale Shares will be acquired by the

Acquirers: PAC 1, PAC 2 and PAC 3 under the SPA. In terms of the SPA, the number of Tranche 2 Sale Shares to be acquired by the Acquirers, PAC 1, PAC 2 and PAC 3 will depend on the number of Equity Shares tendered and accepted in the Open Offer. (5) Pursuant to the SPA, on September 26, 2025, the Acquirers and the PACs have acquired an aggregate of 83,90,076 Equity Shares, representing 5.89% of the Expanded Share Capital.

In terms of the SPA, the Acquirers and the PACs propose to additionally acquire the Tranche 2 Sale Shares, i.e., up to a maximum of 3,70,56,229 (three crore seventy lakh fifty six thousand two hundred and twenty nine) Equity Shares, representing 26.03% of the Expanded Share Capital, reduced by the number of Equity Shares tendered and accepted in the

(7) Excluding those Equity Shares specified in sl. nos. 7.6 and 7.7.

(8) Includes 3,29,350 Equity Shares that may be allotted pursuant to exercise of 3,29,350 employee stock appreciation rights that have vested / are expected to vest on or prior to March 31, 2026 (assuming 1 Equity Share is allotted upon exercise of

8 Other information

8.1 The Acquirers and the PACs accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations of the Acquirers and the PACs laid down in the SEBI (SAST) Regulations in respect of the Open Offer.

8.2 A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and at the registered office of the Target Company.

Issued on behalf of the Acquirers and the PACs by the Manager to the Offer

JM Financial Limited

JM Financial

Address: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025, India Telephone: +91 22 6630 3030; Fax: +91 22 6630 3330 E-mail: vipind.openoffer@imfl.com Contact Person: Prachee Dhuri Website: www.imfl.com SEBI Registration Number: INM000010361

Registrar to the Offer KFin Technologies Limited Address: Selenium, Tower- B, Plot No. 31 & 32, Financial district, Nanakramguda,

Serilingampally, Hyderabad, Telangana, India, 500032

Telephone: +91 40 6716 2222/18003094001; Fax: +91 40 6716 1563 E-mail: vipindustries.openoffer@kfintech.com ▲ KFINTECH Investor Grievance E-mail: einward.ris@kfintech.com

Contact Person: M. Murali Krishna Website: www.kfintech.com SEBI Registration Number: INR000000221 CIN: L72400MH2017PLC444072

Place: Mumbai Date: November 25, 2025

Adfactors 650/25

epaper.jansatta.com

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम **30 के अनसार 1** एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र खंडपीठ,

दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

फॉर्म नं. आईएनसी-26

मैसर्स स्किलवे कंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999DL2021PTC389762) जिसका पंजीकृत कार्यालय एच. न. 158, 1ली मंजिल, बीएलके-डी, पीकेटी-16, सेक्टर-3 रोहिणी. लैंडमार्क नजदीक जैन मंदिर, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली, भारत, 110085 पर स्थित है, के मामले

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा. रा. क्षेत्र **दिल्ली**" से "केरल राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 22 **नवंबर** 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति टउअ–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कंपनी रजिस्ट्रार के पतेः आरओसी बी-2 विंग, 2 रा तल, पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः आवेदक की ओर से और उसके लिए

अब्दुल्ला अबूबाकर दिनांक: 25.11.2025 निदेशक स्थानः दिल्ली डीआईएन: 09784797

स्किलवे कंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटेड

#### सार्वजनिक सुचना केंद्रीय सरकार के समक्ष, रजिस्ट्रार ऑफ

कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन

सीमित देवता भागीदारी अधिनियम, 2008 की घारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में

### वनक्रेस्ट इन्फ्रा एलएलपी

(एलएलपीआईएन: एसीएच-9703) जिसका पंजीकृत पता : 205, दूसरी मंजिल, दीनार भवन, बिल्डिंग नंबर 44,नेहरू प्लेस, नई विल्ली, विल्ली- 110019 ....आवेदक / याचिकाकर्ता एलएलपी

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि "वनक्रेस्ट इनक्रा एलएलपी" ने सीमित देवता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा को एक याचिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को "**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** र **"हरियाणा राज्य"** में बदलने की अनुमति मागी गई है। एलएलपी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है एमसीए-21 पोर्टस (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित क प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरिवाणा, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू फोस, नई दिल्ली- 110019 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी को उनके निम्नलिखित पंजीकत कार्यालय पर्ते पर भी भेजें। 205, दूसरी मंजिल, दीनार भवन, बिल्डिंग नंबर 44,

नेहरू प्लेस. नई दिल्ली, दिल्ली-110019 आवेदक के लिए और उसकी ओर वनक्रेस्ट इन्क्रा एलएलपी

वरुण विरमानी (नामित साझेदार) दिनांक: 25 नवंबर 2025 स्थानः नई दिल्ली बीपीआईएन : 00389509

#### प्ररूप संख्या यूआरसी−2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में}

सचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला मुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की **"रोज़बुड इंटरनेशनल"** एव साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 वं अध्याय गणके भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकत

कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: सभी प्रकार के फनएंचर, सजावटी वस्तुओं और हाइवियर सामग्रियों का निर्माण, आयात, निर्यात और

प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण खसरा नंबर-582, गांव

हिरन कुदना, वोल्टास गोदाम के पास, पश्चिमी दिल्ली - 110041 स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया सुचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी

आपत्ति इस सुचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

रोजवृड इंटरनेशनल के लिए और उसकी ओर से

गीतम गुप्ता (भागीदार) विथि: 26.11.2025 अंकुर अग्रवाल (भागीदार) स्थान : नई दिल्ली

प्ररूप संख्या युआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के सबध में सूचना का विहापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और

कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014

के नियम 4 (1) के अनुसरण में} सुचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में

रजिस्टार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद. लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की **"इन्फ्राकीज़ टैक्नोलॉजीज़ एलएलपी** (एलएलपीआईएन: एसीबी-5994)" एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।

कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: भवनों, गोदामों, उपयोगिताओं और संबंधित सिविल कार्यों और धातु और औद्योगिक वस्तुओं में व्यापार सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक या निजी बनियादी ढांचे का निर्माण, अनुबंध, नवीनीकरण, डिजाइन, इंजीनियरिंग और रखरखाव

प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण बी-0521, पुरी 81, हाई स्ट्रीट, सैक्टर-81, फरीदाबाद-121004 स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है।

सचना दी जाती है की पदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सुधना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पेरिट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकत कार्यालय में भी भेज दें।

तिथि : 25.11.2025, स्थान : फरीदाबाद

इन्फ्राकीज़ टैक्नोलॉजीज़ एलएलपी की ओर से 1. अंकित गोयल (नामित साझेदार) 2. महक जैन (नामित साझेदार) "फॉर्म नं. यूआरसी—2"

अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और (पंजीकरण हेत् अधिकृत) नियमावली. 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

एतदद्वारा यज्ञ सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 366 की उपधारा (2) के अनुसरण में, पंद्रह दिन के बाद लेकिन तीस दिन की समाप्ति से पहले केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉपॉरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला युडगांव हरियाणा–122050 के रजिस्ट्रार को एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है कि 'वीएसके एलटेक सॉल्युशंस एलएलपी' एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के उख्याय XXI के भाग I के तहत शेवरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। कंपनी के मुख्य उददेश्य इस प्रकार है:-

सॉफ्टवेयर सर्विस और सॉल्यूशन, टर्नकी सॉल्यूशन, एंड टू एंड सॉल्यूशन सिस्टम इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हाईवेयर, पेरिफेरेल्स, नेटवर्किंग, डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस और दूसरी सहायक गतिविधियों के डेवलपमेंट सहित इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को डेवलप करना, स्थापित करना, मेंटेन करना, मार्केट करना, एक्सपोर्ट करना और लाइसेंस देना।

 भारत या विदेश में सॉफ्टवेयर, पैकेज और एप्लिकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लिकेशन. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग से जुडी सर्विस ओर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दूसरी सर्विस को उवलप करने, डिजाइन करने मेंटेन करने, बेचने का बिजर्नस करना।

सीं) कंपनी की किसी भी एक्टिविटी के संबंध में रिसर्च और डेवलपमेंट का बिजनेस करना, उसे करना और दूसरे लोगो द्वारा इसे करने का बढ़ावा देना, और ऐसे किसी भी दूसरे एरिया में जिससे कंपनी के बिजनेस को या कंपनी के साथ डील करने वाले या डोने की संभावना वाले लोगों को फायदा हो सकता है. रिसर्च स्टेशन, फॅसिलिटी और एस्टैब्स्शिमेट बनाना, मेंटेन करना और ऑपरेट करना और आम तौर पर कंपनी और दूसरे लोगों के लिए रिसर्च और डेयलपमेंट में शामिल होना और उसके नतीजों का हिसाब रखना।

प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी एच नं. आई-51, जी / एफ, जंगपुरा एक्सटेशन, पोस्ट ऑफिस के पास, जंगपुरा, साऊथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, इंडिया-110014 पर ऑफिस में देखी जा सकती है।

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि इस एव्लीकेशन पर आपत्ति करने वाला कोई भी ब्यक्ति, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोस्ट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) प्लॉट नंबर 8,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव हरियाणा-122050 के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है, और इसकी एक कॉपी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी भेज सकता है।

दिनांक : 25.11.2025

आवेदक का नाम 1. अनीता रामां 2. आयुषी शर्मा खजांची

### सीएसएल फाइनेस लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1992PLC051462

© CSL Finance Limited पंजीकृत कार्यालयः ४१०–४१२, १८/१२, चतुर्थ तल, डब्ल्यू.ई.ए.,

आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 टेलीफोनः 0120-4290650, ईमेलः investor@cslfinance.in, वेबसाइटः www.cslfinance.in

भौतिक रोयरों के लिए स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने हेतु विशेष खिड्की के संबंध में अंतिम अनुस्मारक सूचना

भौतिक शेयरों के लिए स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने हेतु विशेष खिड़की सेबी के सर्कुलर नं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97, तारीख 02 जुलाई 2025 के मुताबिक, कंपनी भौतिक शेयरधारकों के लिए शेयरों के स्थानांतरण अनुरोधों को पुन दाखिल करने के अनुरोध को जमा करने के लिए एकमुश्त विशेष खिड़की उपलब्ध करा रही है। यह विशेष खिड़की 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी और उन मामलों पर लाग होगी जहां मल शेयर हस्तांतरण अनरोध 01 अप्रैल. 2019 से पहले जमा की गई थीं और दस्तावेजीकरण, प्रक्रिया में कमी या किसी और वजह से वापस कर दी गईं/अनअटेंडेड हो गईं या निरस्त कर दी गईं। हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल करने किए गए शेयरों को इस खिड़की के दौरान सिर्फ विभौतिकीकृत रूप में प्रोसेस किया जाएगा। पात्र शेयरधारक अपनी स्थानांतरण अनुरोध को जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) एमएएस सर्विसेज लिमिटेड टी—34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज II, नई दिल्ली-110020 को जमा कर सकते हैं।

केवाईसी अपडेट करें और विभौतिकीकृत शेयर्स को डीमैट मोड में बदलें।

जिन शेयरहोल्डर्स के पास विभौतिकीकृत रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी केवाईसी अपडेट करें और अपने विभौतिकीक शेयर सर्टिफिकेटस को डीमैट फॉर्म (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म) बदल लें। शेयरहोल्डर्स से यह भी अनुरोध है कि वे अपने दावा न किए गए लाभांश की राशि का दावा करें, नहीं तो, इसे सात साल खत्म होने के बाद शेयर्स के साथ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (आईईपीएफए) को समय पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के लिए

दिनांक : 25.11.2025 स्थान : नोएडा

(कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

प्रीति गुप्ता

स्थानः दिल्ली

दिनांक: 25 नवंबर, 2025

## ऋण वसुली अधिकरण-II, दिल्ली के समक्ष

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ऋण वसली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 व 13 के साथ पठित, बैंक एवम् बित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की बस्ली की घारा 19(4) के तहत सूचना के मामले में टीए नं.1274/2023 दिनांक 28.07.2025

सेंट्रल बेंक ऑफ इंडिया ......आवेदक

मैसर्स डी के इलेक्ट्रिकल्स एवं अन्य ......प्रतिवादी

सेवा में, प्रतिबादी डी1. मैसर्स डी के इलेक्ट्रिकल्स

इसके मालिक श्री धर्मेन्द्र कुमार शाह पुत्र रामकृष्ण शाह के माध्यम से निवासी आरजेह-16-ए/340 गली नं.10-ए जगदम्बा विहार वेस्ट सागरपुर नई दिल्ली-46 अन्य पताः आरजेह-१६-ए/३५१ गली नं.१०-ए जगदम्बा बिहार वेस्ट सागरपुर नर्ड दिल्ली-46

ही2. श्रीमती शोभा देवी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार शाह

निवासी आरजेड-16-ए/340 गली नं.10-ए जगदम्बा विहार वेस्ट सागरपुर नई दिल्ली-46 वृंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने रु.2,10,69,913/- (दो करोड़ दस लाख उनहत्तर हजार **नौ सौ लेरह रूपये मात्र)** की वसूली के लिए आपके विरूख एक मुकदमा दर्ज कराया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है। इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको 17.12.2025 को प्रात: 11:00 बजे अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपरिथित में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या भौतिक के माध्यम से लिया जा रहा है और इसके

प्रयोजन हेतु:-(1) सभी अधिवक्ता / वादीगण को "सिस्को वेबैक्स" एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड

(2) "मीटिंग आईडी" एवं "पासवर्ष" सुनवाई की तिथि के लिए माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार द्वारा क्वा मामलों में हीआरटी आधिकारिक पोर्टल

"drt.gov.in" पर दैनिक वाद सूची में ही प्रदर्शित किया जाएगा। (3) किसी भी आपातकालीन स्थिति में एडवोकेटस/लिटिगेंटस संबंधित अधिकारी से फोन नं. 23748478 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

आज 28 जुलाई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया। अधिकरण के आदेशानुसार,



अनुभाग अधिकारी, डीआरटी-II, दिल्ली

# ाडाजटल लिमिटेड

सीआईएन: L63122DL1985PLC373314

पंजीकृत कार्यालय : 403 प्रभात किरण, 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली- 110008 दूरभाष : 011-45142374 निगम कार्यालय : कैमौस्टी बिल्डिंग, प्लॉट संख्या 1, 9वीं मंजिल, सेक्टर 16ए, फिल्म सिटी, नोएडा–201301 दूरभाष : 0120-4751818, वेबसाइट : www.quintdigital.in ईमेल : cs@thequint.com भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः

जमा करने हेतु विशेष विंडो के संबंध में सूचना

26 जुलाई, 2025 और 26 सितंबर, 2025 को प्रकाशित हमारे पूर्व समाचार पत्रों के विज्ञापनों के अनुसरण में, हम पुनः यह बताना चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र संख्या १०/२०२५ के माध्यम से, २६ जुलाई, २०२५ को, २६ सितंबर ... सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी— पीओडी / पी / सीआईआर / 2025 / 97 दिनांक 2 जुलाई 2025 के तहत भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुन : प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष विंडो शुरू की गई है। उक्त परिपत्र के अनुसार, जिन निवेशकों ने 01 अप्रैल, 2019 (जिस तिथि से प्रतिभूतियों का भौतिक रूप में हस्तांतरण बंद कर दिया गया था) से पहले भौतिक शेयरों के लिए हस्तांतरण अनुरोध प्रस्तूत किए थे, और जिनके अनुरोध दस्तावेजों / प्रक्रिया / या अन्य कारणों से अस्वीकार / वापस कर दिए गए थे / उन पर ध्यान नहीं दिया गया था, उन्हें अब आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐसे हस्तांतरण अनुरोध पुन : प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

निवेशक 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक की छह महीने की विशेष अवधि के दौरान, आवश्यक दस्तावेजों और कमियों को दूर करने के साथ, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास अपने पूर्व अनुरोध पुन : प्रस्तुत कर सकते हैं। निवेशक नीचे दिए गए किसी भी पते पर कंपनी या आरटीए को दस्तावेज भेज सकते हैं:

विंवट डिजिटल लिमिटेड

दिनांक: 25 नवंबर, 2025

स्थानः नोएडा

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट इकाई : क्विंट डिजिटल लिमिटेड पता– कंपनी सचिव, पता— ४०३, प्रभात

किरण. 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली, 110008, | ईमेल : cs@thequint.com

ए—506, दत्तानी प्लाजा, अंधेरी कुर्ला रोड, सफेद पूल, अंधेरी–पूर्व, मुंबई–महाराष्ट्र 400072 ईमेल : pravin.cm@slrylinerta.com अनुपालन में सेबी के दिनांक 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, स्थानांतरण के लिए पुनः जमा की गई

प्रतिभूतियाँ (जिनमें आज की तिथि तक कंपनी/आरटीए के पास लंबित अनुरोध भी शामिल हैं) ऐसे स्थानांतरण-सह-डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, केवल डीमैट रूप में जारी की जाएँगी। हम उन सभी निवेशकों से आग्रह करते हैं जिन्होंने पूर्व में स्थानांतरण अनुरोध प्रस्तृत किए थे और जिन्हें किमयों

के कारण अभी तक शेयर प्राप्त नहीं हुए हैं, कि वे निवेशकों के हित में शुरू की गई इस विशेष सुविधा क क्विंट डिजिटल लिमिटेड के लिए हस्ता./

तरुण बेलवाल कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या ए३९१९०

स्थान : गुरुग्राम

दिनाँक : 25-11-2025

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

#### optiemus ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय:** के -20, दूसरी मंजिल, ताजपत नगर - ॥, नई दिल्ली-110024 **कॉर्पोरेट कार्यालय:** डी-348, सेक्टर-63, नीएडा, उत्तर प्रदेश-201307 वेबसाइट: www.optiemus.com | ईमेल: info@optiemus.com | फोन: 011-29840906

### प्रेस विशापन

रतद द्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र खो जाने/गुम हो जाने की सूचना दी गई और ऐसे शेयर प्रमाणपत्रों के दावेदार ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी/आरटीए कें

ह. सं	फोलियो संख्या	शेयरधारक का नाम	प्रमाणपत्र संख्या(एँ)	विशिष्ट संख्या(एँ)	शेयरों की संख्या
1.	0000298	करोडी मल बंसल	21224- 21227	2121501- 2121900	400
			21271-21290	2126201- 2128200	2,000
			21301-21304	2129201- 2129600	400
			21321-21321	2131201- 2131300	100
			21324- 21324	2131501- 2131600	100
			21328- 21334	2131901- 2132600	700
			21340- 21343	2133101-2133500	400
			21350- 21353	2134101- 2134500	400
			21362-21368	2135301-2136000	700
			21373-21373	2136401-2136500	100
		X0/ = 1	कुल	0.00	5,300

कोई भी व्यक्ति जिसके पास उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्र के संबंध में कोई दावा(वें) है इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इस तरह के दावे को '**ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड**' कंपनी के पास डी-348, सेक्टर-63. नोएडा. उत्तर प्रदेश-201307 में स्थित उनके कॉर्पोरेट कार्यालय में दर्ज कराना चाहिए य info@optiemus.com पर लिखें, जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपर हप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी।

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के लिए हस्ता/

दिनांक: 25 नवम्बर **202**5 स्थान : नोएडा

विकास चंद्रा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी



### सीआईएन: L35911HR1965PLC004485 जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: जब स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर - 135001, हरियाणा कॉपोरेंट कार्यालयः यूनिट नंबर 408,4वी मंजिल, टावर-बी, वाटिका माइंडस्केप्स, सेक्टर-27डी, एनएच2, फरीदाबाद-121003(हरियाणा)

दुरभाष. 0129-4006885; वेबसाइट: www.jaispring.com इंमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com

पोस्टल बैलट की सुचना

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102, 108, 110 और अन्य लाग् प्रायधानों, यदि कोई हो, , भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमन 44 और कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी इस विषय पर सभी लागु परिपत्रों के अनुपालन में, 01 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2028 तक 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री आर. एस. जौहर (डीआईएन: 00746186) की नियक्ति के लिए विशेष प्रस्ताव केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों के विचार के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

कंपनी ने 24 नवंबर, 2025 को पोस्टल बैलेट नोटिस ('नोटिस') केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दिया है, जिनके ई-मेल पते कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 19 नवंबर, 2025 को डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत थे। जिन सदस्यों के ईमेल पते आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे अपने ईमेल पते को आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ नोटिस में उल्लिखित के अनुसार पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। नोटिस, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की भौतिक प्रतिबां सदस्यों को नहीं भेजी जा रही हैं।

कृपया ध्यान दें कि केवल वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर आरटीए/डिपॉजिटरी हारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्थामियों की सूची में दर्ज हैं, रिमोट ई-चोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। जिस तरह से भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिनके ईमेल पते कटऑफ तिथि तक पंजीकत नहीं हैं, वे नोटिस में दो गई प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं। नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://jaispring.com/annual-and-financial-report- financial.aspx?financial-year=2025-2026 पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजी की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है। जिन सदस्यों को नोटिस नहीं मिला है वे इसे उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति (के पक्ष में) या असहमति (विरुद्ध) प्रदान करें। कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं।ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में दी गई है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 30 नवंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 29 दिसंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा।

ı. ई-चोटिंग से जुड़े किसी भी मुद्दे/प्रश्न के मामले में, सदस्य एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल के टोल फ्री नंबर 022 - 48867000/022 - 24997000 पर कॉल कर सकते हैं या investor.relations@jaispring.com पर मेल भेज सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मैसर्स आरएसएम एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या 4468) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग द्वारा पोस्टल बैलेट की संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणाम ई-चोटिंग प्रक्रिया के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और यह कंपनी, एनएसढीएल, एनएसई और बीएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध होंगे।

> जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए प्रवीण लखेर कंपनी सचिव एवं प्रमुख-विधि



आर्चीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं 191एफ, सेक्टर-4, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050 सीआईएन: L36999HR1990PLC041175,

वेब : www.archiesonline.com और www.archiesinvestors.in इमेल : archies@archiesonline.com, दूरभाष : +91 124 4966666

डाक मतपत्र और दूरस्थ ई-वोटिंग की सूचना

रतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और 22, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम ४४, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ('एसएस-2') द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक, प्रत्येक संशोधित, सामान्य परिपत्र संख्या १४ / २०२० दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १७ / २०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२० और समय—समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 है जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ('एमसीए परिपत्र') ई-वोटिंग के माध्यम से सामान्य बैठकें आयोजित करने / डाक मतपत्र प्रक्रिया संचालित करने तथा किसी अन्य लाग कानून, नियम और विनियमों के लिए कि नीचे दिए गए संकल्प को कंपनी के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से मतदान करके अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

क्र सं	विवरण	प्रस्ताव का प्रकार
1	मैसर्स दयाल एंड मौर, कंपनी सचिवों की लगातार 5 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति।	साधारण प्रस्ताव
2	श्री रिजुल बंसल की कंपनी के अकार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष प्रस्ताव

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मंगलवार 25 नवंबर, 2025 को उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से डाक मतपत्र नोटिस भेजा है, जिन्होंने कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी एमयूजीएफ इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं और जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के साथ बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट—ऑफ तारीख यानी 14 नवंबर 2025 तक दिखाई देता है। मतपत्र फॉर्म के साथ डाक मतपत्र नोटिस की भौतिक प्रति नहीं भेजी जा

पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://archiesinvestors.in/investors/, स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई और एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और एमयुएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote/linkintime.co.in/ पर भी उपलब्ध होगा।

ई-वोटिंग के लिए निर्देशः कंपनी ने इंस्टावोट की सेवाएँ ली हैं, जिससे सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में दी गई

रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 26 नवंबर 2025 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होकर गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक चलेगी। इस अवधि के दौरान, कट—ऑफ तिथि तक भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 तक रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सहमति (समर्थन में) या असहमति (विरोध में) दर्ज कराएँ। सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। वे सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 (पैन, केवाईसी विवरण या उसमें परिवर्तन/अपडेशन के लिए फॉर्म) के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और पते के प्रमाण के रूप में किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मास्क्ड आधार, आदि) कंपनी के आरटीए को नीचे दिए गए पते पर या enotices@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल द्वारा जमा करके इसे अपडेट

कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') ने शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मैसर्स दयाल एंड मौर कंपनी सेक्रेटरीज (सीओपी संख्याः 7142) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट के संचालन के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया। यदि प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उन्हें ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि, यानी गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को पारित माना जाएगा, मानो वे शेयरधारकों की आम बैठक में पारित किए गए हों।

परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड ('बीएसई'), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') (सामूहिक रूप से 'स्टॉक एक्सचेंज') और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे, और कंपनी की वेबसाइट www.archiesinvestors.in पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। किसी भी प्रश्न के लिए, आप https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या enotices@in.mpms.mufg.com अथवा investorservices@archiesonline.com पर ईमेल लिख सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिए गए सभी निर्देशों और विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की विधि को ध्यानपूर्वक पढें। बोर्ड के आदेशानुसार

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

epaper.jansatta.com

कृते आर्चीज लिमिटेड

(चिरंजीवी रामुका)

@ pnb Housing

शाखा कार्यालय :- सी2/21, फर्स्ट पलोर, सी ब्लॉक, माता चानन देवी रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

tialityst estalina : 901 stat, siatific estat, 22, 9t. 9t. atrif., mi filmii-110001, genet si: 01123557171, 23357172, 23705414, fistate: -nww.pnihtonsing.com

तिबि के अनुसार संशोषित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साव प्रदित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्तिर्भाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय 🔠 की धारा 13(2) के अंतर्गत सुवना 2002 (पहीं इसमें इसके जपरीत "अधिनियम" के रूप में सर्वार्मेत) के अध्यय 111 की बार 13(2) के अंतर्गत हमारी जनकपुरी शास्त्र के कार्यालय जो सी2/21, करते पत्नेर सी कार्या ानन देवी रोड, जनकपुरी, नई दिस्सी – 110058 में स्थित है, के मध्यम से मॉग सूचना निर्मत की थी। उक्त मीम सूचना जो है यह हमारे प्राधिकृत अधिकारी के मध्यम से नीचे वर्णित आ सभी उधारकतीओं / सह-रुधारकर्ताओं /गारंटरों को निर्गत की गई थी और ऐसा इसलिये किया गया था क्योंकि आपके ताते को किसतों / प्याज का मुगतान न करने के कररण भारतीय

किस्तों के भूगतान में आपके हात की गई चुके हैं। ककामा तरिष्ठ का उल्लेखन नीमें तालिका में किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनेक कारणों से हम मानते हैं कि आप मींग सुधना क ातनानुवालन करने से बच रहे हैं और इसलिये हम उक्त अधिनियम की बारा 13(2) के अंतर्गत मी अनिवार्य बन चुनी इस मींग जूनना का यह प्रकाशन कर रहे हैं। आपको एलवृद्वारा इस मींग पुचना के प्रकाशन की लिखि से का दिनों की एकावधि के मीलर पीएनबीएकएफएल को अदालन खाज और शुक्कों के शाय निम्न लालिका में अंकित राशि का बुगलान करने का निर्देश देते हैं पताल करने में विफल होने पर पीएनबीएपएकएल जो है वह उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के शमी या किली मी प्रावधान के तहल सभी प्रतिमृत परिकारतियों के इनमें से किसी एक या अधिक विरुद्ध अनिवार्य कार्रवाई 🖊 उपाय करेगी. जिसमें उधारकवांओं और गारटरां की प्रतिभूत गरिसगतियाँ पर अधिग्रहण किए जाने की कार्रवाई मी सम्मितित होगी। गपक ध्यान, विशीध परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एट पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति कित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की छन। १३ की उप-धारा (३) के प्रावधानों की ओर अकुष्ट किया जाता है, जिस अतर्गत आप निजी संघि द्वारा अथवा जनता से कोटेशने व निविदा निमंकित करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही पीएनवीएचएफर द्वारा बहतकुर समस्त लागतो, प्रमारी एवं व्यवों के साथ बकावें की संपूर्ण शशि का भूगतान कर सकते हैं 🗸 उसे चुका सकते हैं। कृपता व्यान दें कि यदि निजी संबे द्वारा अथवा जनता कोटेशने व निविदा निमंत्रित करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत परिस्थतियों के विकासके सूचना के प्रकारन से पूर्व पीएनबीएचएफऐन द्वारा वहनकुत समस्त लगतों, प्रभारी एवं प्यावी के साव बबाये की संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है 🗸 उसे नहीं पुकरणा जाता है. तो इसे अवधि के उपरीत आप प्रतिभूत परिसंवित्त(याँ) को ऋषेणुक्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की छल 13(13) के अंतर्गत विक्रय, पट्टा के मध्यम से अथवा कियी मी अन्य विधि से उपयुक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का इस्तीतरण करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

रिजर्प कैंक 🖊 राष्ट्रीय आवासन वैक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिष्पादनकारी परिख्यतियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। उस की विषयवस्तु जो है वह मूलधन, व्याज इत्वादि की

भीग सूचना तिथि कंपवन्त्रत संपत्ति के अनुसार बकाया राशि नाम एवं पता संख्या HOU 20 11 2025 市 29/87/885.15/- (RU市 प्रावस्पति २५०७, २, दावर- १, एसक्य ग्रीन सेशन N-THEREOF, SET : S- THESE THEN- 25, AFRICANT - 5 SET लीस साध सैताजिस हजार छह JAN त्रीएव-कार्म, रोक्टर-12, अमध्य बील, गीतम हुद्ध नग

ता, दिल्ली-राज्याह, चंदा : ३ - सहमति ३०७ ३, टील-६, एससे तर्म सेमन जीवण-सर्वन, संस्ता - १३ जनका जैन सेमल हुद्द स्थ सी पैसा और पंद्रह पैसे मान) 0816/ र्कटर गोएस, उसर प्रदेश - 201301 18.11.2026 के अनुसार ककावा tor street over 1881-205301. Most lifts siften favo and an Artificial Englishment and annual first and analysis analysis and analysis analysis and analysis analysis analysis and analysis analysis and analysis वी अर्थे : जनकपुरी स्थान : जनकपुरी, दिनौंक : 25-11-2025 प्राधिकत अधिकारी, पीएनबी हाएसिंग फाइनेंस लिमिटेड POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SEBI (SUBSTANTIAL

ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

### V.I.P. INDUSTRIES LIMITED

CIN: L25200MH1968PLC013914

Registered office: 5th Floor, DGP House, 88 C, Old Prabhadevi Road, Mumbai, Maharashtra, 400 025, Tel No.: +91 (22) 6653 9000; Website: www.vipindustries.co.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 3,70,56,229 (THREE CRORE SEVENTY LAKH FIFTY SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND TWENTY NINE ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF INR 2/- (INDIAN RUPEES TWO ONLY) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 26.03% (TWENTY SIX POINT ZERO THREE PERCENT) OF THE EXPANDED SHARE CAPITAL OF V.I.P. INDUSTRIES LIMITED ("TARGET COMPANY"), AT A PRICE OF INR 388.00/- (INDIAN RUPEES THREE HUNDRED AND EIGHTY EIGHT ONLY) PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE"). IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS"), FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY MULTIPLES PRIVATE EQUITY FUND IV ("ACQUIRER 1"), MULTIPLES PRIVATE EQUITY GIFT FUND IV ("ACQUIRER 2", AND TOGETHER WITH ACQUIRER 1, "ACQUIRERS"), TOGETHER WITH SAMVIBHAG SECURITIES PRIVATE LIMITED ("PAC 1"), MITHUN PADAM SACHETI ("PAC 2"), SIDDHARTHA SACHETI ("PAC 3") AND PROFITEX SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED ("PAC 4", AND TOGETHER WITH PAC 1, PAC 2 AND PAC 3, "PACS"), IN THEIR CAPACITY AS PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRERS. PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER")"OPEN OFFER").

This post offer advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by JM Financial Limited, the manager to the Open Offer ("Manager to the Offer" or "Manager"), in respect of the Open Offer, for and on behalf of the Acquirers and the PACs to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST)

This Post Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated July 2025 ("PA"); (b) the Detailed Public Statement that was published in Financial Express - English (all editions), Jansatta Hindi (all editions) and Navshakti - Marathi (Mumbai edition) on July 18, 2025 ("DPS"); (c) the Letter of Offer dated October 23, 2025, along with Form of Acceptance ("LOF"); and (d) the Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the DPS ("Pre-Offer Advertisement") that was published on October 31, 2025, in all the newspapers in which the DPS was published. This Post Offer Advertisement is being published in all the newspapers in which the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the LOF. The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open Offer:

1.	Name of the Target Company:	V.I.P. Industries Limited		
2.	Name of the Acquirers and PACs:	Multiples Private Equity Fund IV (Acquirer 1) Multiples Private Equity GIFT Fund IV (Acquirer 2) Samvibhag Securities Private Limited (PAC 1) Mithun Padam Sacheti (PAC 2) Siddhartha Sacheti (PAC 3) Profitex Shares and Securities Private Limited (PAC 4)		
3.	Name of the Manager to the Offer:	JM Financial Limited		
4.	Name of the Registrar to the Offer:	KFin Technologies Limited		
5.	Offer Details:			
	a) Date of Opening of the Offer:	Monday, November 3, 2025		
	b) Date of Closure of the Offer:	Monday, November 17, 2025		
6.	Date of Payment of Consideration:	Thursday, November 20, 2025		

6.	Date of Payment of Consideration:	Thursday, November 20, 2025			
. De	etails of Acquisition:				
SI. No.	Particulars	Proposed	in the LOF <sup>(1)</sup>	Act	uals <sup>(1)</sup>
7.1	Offer Price (per Equity Share)	INR 388.00/-		INR 388.00/-	
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered in the Offer	3,70,	56,229 <sup>(2)</sup>	23,623(3)	
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted in the Offer	3,70,	56,229(2)	23,623(3)	
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price)	INR 1,437	,78,16,852/- <sup>(2)</sup>	INR 91,65,724/-	
7.5	Shareholding of the Acquirers and the PACs before agreements/ public announcement • Number • % of Equity Share Capital	Acquirer 1: Nil (0.00%) Acquirer 2: Nil (0.00%) PAC 1: Nil (0.00%) PAC 2: Nil (0.00%) PAC 3: Nil (0.00%) PAC 4: Nil (0.00%)		Acquirer 1: Nil (0.00%) Acquirer 2: Nil (0.00%) PAC 1: Nil (0.00%) PAC 2: Nil (0.00%) PAC 3: Nil (0.00%) PAC 4: Nil (0.00%)	
7.6	Equity Shares acquired by way of agreements  Number  More Capital	Acquirer 1: 28,58,544 (2.01%) <sup>(4)</sup> Acquirer 2: 31,52,461 (2.21%) <sup>(4)</sup> PAC 1: 22,12,517 (1.55%) <sup>(4)</sup> PAC 2: 83,277 (0.06%) <sup>(4)</sup> PAC 3: 83,277 (0.06%) <sup>(4)</sup> PAC 4: Nil (0.00%)		Acquirer 1: 28,58,544 (2.01%) <sup>(3)(4)</sup> Acquirer 2: 31,52,461 (2.21%) <sup>(3)(4)</sup> PAC 1: 22,12,517 (1.55%) <sup>(3)(5)(4)</sup> PAC 2: 83,277 (0.06%) <sup>(3)(4)</sup> PAC 3: 83,277 (0.06%) <sup>(3)(4)</sup> PAC 4: Nil (0.00%)	
7.7	Equity Shares acquired by way of Open Offer  Number  Wo of Equity Share Capital	Acquirer 1: 1,26,25,261 (8.87%) <sup>(2)</sup> Acquirer 2: 1,39,23,381 (9.78%) <sup>(2)</sup> PAC 1: 97,71,967 (6.86%) <sup>(2)</sup> PAC 2: 3,67,810 (0.26%) <sup>(3)</sup> PAC 3: 3,67,810 (0.26%) <sup>(3)</sup> PAC 4: Nil (0.00%)		Acquirer 1: 8,049 (0.01%) Acquirer 2: 8,876 (0.01%) PAC 1: 6,230 (0.00%) PAC 2: 234 (0.00%) PAC 3: 234 (0.00%) PAC 4: Nil (0.00%)	
7.8	Equity Shares acquired after Detailed Public Statement <sup>(7)</sup> • Number and price of Equity Shares acquired • % of Equity Share Capital	Nil (Nil)		Nil (Nil)	
7.9	Post Offer shareholding of the Acquirers and the PACs  Number  Wof Equity Share Capital	Acquirer 1: 1,54,83,805 (10.87%) <sup>(2)</sup> Acquirer 2: 1,70,75,842 (11.99%) <sup>(2)</sup> PAC 1: 1,19,84,484 (8.42%) <sup>(2)</sup> PAC 2: 4,51,087 (0.32%) <sup>(3)</sup> PAC 3: 4,51,087 (0.32%) <sup>(3)</sup> PAC 4: Nil (0.00%)		Acquirer 1: 28,66,593 (2.01%) <sup>(6)</sup> Acquirer 2: 31,61,337 (2.22%) <sup>(6)</sup> PAC 1: 22,18,747 (1.56%) <sup>(6)</sup> PAC 2: 83,511 (0.06%) <sup>(6)</sup> PAC 3: 83,511 (0.06%) <sup>(6)</sup> PAC 4: Nil (0.00%)	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public Shareholders <sup>(2)</sup>	Pre-offer	Post-offer(2)	Pre-offer	Post-offer
	Number	6,93,63,107	3,23,06,878	6,93,63,107	6,93,39,484
	% of Equity Share Capital	(48.72%)	(22.69%)	(48.72%)	(48.70%)

Percentage calculated based on the Expanded Share Capital as on the date of the LOF, i.e., 14,23,80,784 Equity Shares.

(2) Assuming full acceptance in the Open Offer.

(3) All the 23,623 Equity Shares that were validly tendered in the Open Offer are in dematerialised form. (4) Computed assuming full acceptance in the Open Offer and, consequently, no Tranche 2 Sale Shares will be acquired by the Acquirers, PAC 1, PAC 2 and PAC 3 under the SPA. In terms of the SPA, the number of Tranche 2 Sale Shares to be acquired by

(5) Pursuant to the SPA, on September 26, 2025, the Acquirers and the PACs have acquired an aggregate of 83,90,076 Equity. Shares, representing 5.89% of the Expanded Share Capital. (6) In terms of the SPA, the Acquirers and the PACs propose to additionally acquire the Tranche 2 Sale Shares, i.e., up to a maximum of 3,70,56,229 (three crore seventy lakh fifty six thousand two hundred and twenty nine) Equity Shares.

the Acquirers, PAC 1, PAC 2 and PAC 3 will depend on the number of Equity Shares tendered and accepted in the Open Offer.

representing 26.03% of the Expanded Share Capital, reduced by the number of Equity Shares tendered and accepted in the

(7) Excluding those Equity Shares specified in sl. nos. 7.6 and 7.7. (8) Includes 3,29,350 Equity Shares that may be allotted pursuant to exercise of 3,29,350 employee stock appreciation rights that have vested / are expected to vest on or prior to March 31, 2026 (assuming 1 Equity Share is allotted upon exercise of employee stock appreciation right).

8 Other information

8.1 The Acquirers and the PACs accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations of the Acquirers and the PACs laid down in the SEBI (SAST) Regulations in respect of the Open Offer.

8.2 A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and at the registered office of the

JM Financial Limited

Issued on behalf of the Acquirers and the PACs by the Manager to the Offer

JM Financial

Address: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025, India Telephone: +91 22 6630 3030; Fax: +91 22 6630 3330 E-mail: vipind.openoffer@jmfl.com Contact Person: Prachee Dhuri Website: www.imfl.com SEBI Registration Number: INM000010361

Registrar to the Offer

Address: Selenium, Tower- B, Plot No. 31 & 32, Financial district, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana, India, 500032

KFin Technologies Limited

Telephone: +91 40 6716 2222/18003094001; Fax: +91 40 6716 1563 E-mail: vipindustries.openoffer@kfintech.com Investor Grievance E-mail: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna Website: www.kfintech.com

SEBI Registration Number: INR000000221 CIN: L72400MH2017PLC444072

Place: Mumbai Date: November 25, 2025

▲ KFINTECH

Chandigarh

Adfactors 650/25